

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
2013-2014



BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY



• LUCKNOW •
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
(A Central University)
LUCKNOW

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
(A CENTRAL UNIVERSITY)
VIDYA VIHAR, RAEBARELI ROAD, LUCKNOW



ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR
2013-2014

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1	Balance Sheet	1
2	Income & Expenditure Account	2
	Schedules forming Part of Balance Sheet as at 31.03.2014	
3	Schedule 1 - Capital Fund	3
4	Schedule 2 - Earmarked / Endowment Funds	4-6
5	Schedule 3 - Current Liabilities and Provisions	7-9
6	Schedule 4 - Fixed Assets	10-11
7	Schedule 5 - Current Assets, Loans & Advances	12-13
	Schedules forming Part of Income & Expenditure Account for the year ended 31st March, 2014	17
8	Schedule 6 - Grants / Subsidies	18
9	Schedule 7- Academic Receipts	19
10	Schedule 8 - Income from Investments	20
11	Schedule 9 - Other Income	21
12	Schedule 10 - Establishment Expenses	22
13	Schedule 11 - Academic Expenses	23
14	Schedule 12 - Administrative Expenses	24-25
15	Schedule 13 - Repairs & Maintenance	26
	Schedules forming Part of the Accounts for the year ended 31st March, 2014	27
16	Receipts and Payments Account	28
	Accounts of Provident Funds and New Pension Scheme	
17	Balance Sheet - Provident Fund Account	29
19	Income & Expenditure Account - Provident Fund Account	30
20	Receipts & Payments Account - Provident Fund Account	31
21	Balance Sheet - New Pension Scheme	32
22	Income & Expenditure Account - New Pension Scheme	33
23	Receipts & Payments Account - New Pension Scheme	34
24	Balance Sheet - ET	35
25	Income & Expenditure Account - ET	36
26	Receipts & Payments Account - ET	37
27	Balance Sheet - Education	38
28	Income & Expenditure Account - Education	39
29	Receipts & Payments Account - Education	40
30	Balance Sheet - New Courses	41
31	Income & Expenditure Account - New Courses	42
32	Receipts & Payments Account - New Courses	43

33	Schedule 2-Corpus Fund	44
34	Schedule 3 A Specimen format of Sub Schedule to support the figures in the column "Endowment Funds" in the Schedule "Earmarked/Endowment Funds" forming part of the Balance Sheet	45
35	Schedule 4.5 (b) Sponsored Projects	46
36	Schedule 4.5 (f) Unutilised grants from UNGC, Government of India and State Government	47
37	Schedule 14- Prior Period Income	48
38	Schedule 15 A Employees Retirement & Terminal Benefits	49
39	Schedule 19 - Prior Period Expenses	50
40	Note of Accounts	51
41	Audit Certificate	52-56

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2014

(Amount - Rs.)

Capital / Corpus Fund and Liabilities

Liabilities	Schedule	Current Year	Previous Year
Capital Fund	1	1,701,396,058.00	1,878,102,252.00
Corpus Fund			
Earmarked / Endowment Funds	2	106,991,248.00	115,923,731.00
Current Liabilities & Provisions	3	109,945,374.00	82,247,167.00
Total		1,918,332,681.00	2,076,273,151.00
Assets			
Fixed Assets (Net Block)	4	1,284,890,387.00	1,051,737,702.00
Fixed Assets (Previous year adjustment)	4	8,542,888.00	
Investments			
Current Assets, Loans & Advances	5	623,899,406.00	1,024,535,450.00
Total		1,918,332,681.00	2,076,273,152.00

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

Amount in Rs.

	Schedule	Current Year	Previous Year
A. Income			
Grants in aid / subsidies	6	267,677,408.00	621,665,866.00
Academic receipts	7	7,716,486.00	7,527,052.00
Income from Investments	8	21,178,290.00	17,197,725.00
Other Income	9	12,234,842.00	3,591,608.00
Total (A)		308,807,026.00	649,982,251.00
B. Expenditure			
Establishment expenses	10	168,399,318.00	157,937,354.00
Academic expenses	11	50,042,718.00	22,577,458.00
Administrative expenses	12	58,625,739.00	22,187,559.00
Repairs and Maintenance	13	172,712,376.00	13,462,577.00
Depreciation	4	44,275,958.00	28,348,160.00
Depreciation (Previous year adjustment)	4	(8,542,888.00)	
Total (B)		485,513,221.00	244,513,108.00
Balance being surplus / (Deficit) carried to Capital Fund (A-B)		(176,706,194.00)	405,469,143.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**Schedule 1 – Capital Fund****Amount in Rs.**

Particulars		Current Year	Previous Year
	Balance at the beginning of the year	1,87,81,02,252.00	147,26,33,109.00
Add:	Grants from UGC, Govt. of India, and State Govt. utilized for capital expenditure		
Add:	Assets Purchased out of Corpus Fund & Earmarked Funds		
Add:	Assets Donated/Gifts Received		
Add:	Assets Purchased out of Sponsored Project Funds		
Add:	Surplus transferred from the Income and Expenditure A/c	(176,706,194.00)	405,469,143.00
Total		1,701,396,058.00	187,81,02,252.00
(Deduct)	Adjustments Previous Years		
(Deduct)	Deficit transferred from the Income & expenditure account		
Balance at the year end		1,701,396,058.00	1,87,81,02,252.00

*At present, the assets acquired under projects are reflected under University assets which will be separately shown from the year 2014-15 onwards.

Schedule 2: Earmarked/Endowment Funds

Particulars	SC/ST/OB C Scholarship	HBA Fund	Dr.Abha Misra	EMF	Rajiv Gandhi National Fellowship Fund	RCA	Dr.Ram Chandra- DBT	SAP Sociology	ASC
A.									
a) Opening balance	1,013,014	1,174,121	239,934	14,935,612	21,613,257	40,065,007	369,498	1,136,621	234,489
b) Additions during the year			499,028	26,298,353			417,620		
c) Income from investments made of the funds									
d) Accrued Interest on investments made of the funds									
e) Accrued Interest on Advances									
f) Interest on Savings Bank a/c/FDR A/c	45,373	10,560	7,845	502,616	851,654	1,479,768	8,876	45,162	9,473
g) Other additions	2,500	11,280	-	49,819	120,833	37,875	-		
Total (A)	1,060,887	1,195,961	746,807	41,786,400	22,585,744	41,582,650	795,994	1,181,783	243,962
B. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds									
i) Revenue expenditure	17,150		543,987	13,005,250	3,491,084	11,897,992	499,547	1,039,697	
ii) Capital Expenditure			-	-		-	-		
ii) Investment/Fdr		-		-					
Total (B)	17,150	-	543,987	13,005,250	3,491,084	11,897,992	499,547	1,039,697	-
Closing balance at the year end (a - b)	1,043,737	1,195,961	202,820	28,781,150	19,094,660	29,684,658	296,447	142,086	243,962
<u>Represented by</u>									
Cash And Bank Balance	1,043,737	295,961	202,820	24,281,150	19,094,660	29,684,658	296,447	142,086	243,962
Investments/FDR		900,000		4,500,000					
Interest accrued but not due on Investments									
Interest accrued but not due on Advances									
Recoverable amount out of March Salary									
Current Year	1,043,737	1,195,961	202,820	28,781,150	19,094,660	29,684,658	296,447	142,088	243,962
Previous Year	1,013,014	1,174,121	239,934	14,935,612	21,613,257	40,065,007	369,498	1,136,621	234,489

J R BOYS Hostel	Computer Centre	CSSEIP	Dr.Manish Kumar	JR Girls Hostel	Dr Anand Prakash-DBT	Dr Naveen Arora	Dr Ananad Praksh-UGC	JRF Fellowship	ICSSR(Prof Narendra Kumar)	Media Centre	Dr.Narendra Kumar-DES
1,082,917	1,010,039	823,408	341,055	1,138,485	340,965	202,667	571,037	7,388,923	1,289,668	9,005,862	424,527
-		267,860	-		506,000	292,000	-	-	1,650,000	-	-
52,486	47,025	25,852	7,189	50,603	27,263	3,925	31,555	233,223	45,650	362,613	10,381
		-	42,636		-	-	20,651				
1,135,403	1,057,064	1,117,120	390,880	1,189,088	874,228	498,592	623,243	7,622,146	2,985,318	9,368,475	434,908
	1,057,064	721,957	390,880		222,000	487,340	255,629	7,514,090	2,356,875	1,736,071	383,554
1,135,403				1,189,088	-	-	-		-		
1,135,403	1,057,064	721,957	390,880	1,189,088	222,000	487,340	255,629	7,514,090	2,356,875	1,736,071	383,554
-	-	395,163	-	-	652,228	11,252	367,614	108,056	628,443	7,632,404	51,354
-	-	395,163	-	-	652,228	11,252	367,614	108,056	628,443	7,632,404	51,354
-	-	395,163	-	-	652,228	11,252	367,614	108,056	628,443	7,632,404	51,354
1,082,917	1,010,039	823,408	341,055	1,138,485	340,965	202,667	571,037	7,388,923	1,289,668	9,005,862	424,527

Pension Fund	Startup Grant	Prof Narendra Kumar-UGC MRP	Dr. Anand Prakash DST	Dr. Gaurav Kaithwas	Dr. Ram Naresh Bhargava	Dr. Sudita Saha	Totals
8,042,959	2,762,896	424,407	292,363				115,923,731
-	540,000	-	-	2,655,000	2,455,000	746,800	36,327,661
							-
							-
							-
325,726	95,392	17,158	12,277	41,533	38,310	11,559	4,401,047
55,712	5,005						346,311
8,424,397	3,403,293	441,565	304,640	2,696,533	2,493,310	758,359	156,998,750
	1,681,072	-	231,200	10,101	79,884	60,587	47,683,011
	-		-				2,324,491
							-
-,	1,681,072	-	231,200	10,101	79,884	60,587	50,007,502
8,424,397	1,722,221	441,565	73,440	2,686,432	2,413,426	697,772	106,991,248
8,424,397	1,722,221	441,565	73,440	2,686,432	2,413,426	697,772	101,591,248
							5,400,000
							-
							-
8,424,397	1,722,221	441,565	73,440	2,686,432	2,413,426	697,772	106,991,248
8,042,959	2,762,896	424,407	292,363	-	-	-	115,923,731

SCHEDULE 3-CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				
A. CURRENT LIABILITIES		2012-13	Addition 2013-14	As on 31-3-2014
SC/ST CELL		7,400.00		7,400.00
Leave Salary Pension Contribution-N-Plan		48,307.00		48,307.00
EMD		1,388,960.00		1,388,960.00
GIS/GSLIS		152,713.00	(600.00)	152,113.00
Withheld Amount		5,168,296.00	4,577,540.00	9,745,836.00
Liabilities for GPF		17,380,383.00		17,380,383.00
Liabilities for CPF		2,987,041.00		2,987,041.00
PF Liability		26,876,679.00		30,188,771.00
NPS liability		6,749,060.19		10,724,127.19
Et 2013				-
Education				8,591,230.00
New Courses				3,528,767.00
Medical Advance		21,275.00		21,275.00
Amount payable to State Government		2,305,065.00		2,305,065.00
Security Deposits		687,646.00	227,505.00	915,151.00
Caution Money Deposits		475,305.00		475,305.00
Prorata Pension		311,388.00		311,388.00
CEA Recovery - Non Plan		208,000.00		208,000.00
Maintenance Allowance		5,400.00		5,400.00
Recoveries from Salaries/Advance to Staff		1,616,036.00		1,616,036.00
LIC		22,000.00		22,000.00
Sundry Receipts(Liability)		2,430,000.00		2,430,000.00
Retention Amount			2,871,897.00	2,871,897.00
Penalty			950,427.00	950,427.00
CV Raman International Fellowship			4,473.00	4,473.00
Donation			68,568.00	68,568.00
TOTAL (A)		68,840,954.19		96,947,920.19

B. PROVISIONS		-		-
For TDS		15,875.00		15,875.00
Retiarment gratuity (Non Plan)		-		-
Salary payable Plan		-		-
Equipment Purchase Payable(Plan)		-		-
Central Facility USIC payable(Plan)		16,290.00		16,290.00
Other(Furniture & Vehicle-Plan) Payable		431,025.00		431,025.00
Extension fo Rearing house Building-Payable-Plan				-
Remittances to Other Institutions				-
Construction of legal studies building-payable-Plan		-		-
UGC RESEARCH FELLOWSHIP-PLAN Payable		-		-
Unassigned Grant-Travel payable-plan		-		-
Coaching for net for Sc/St-payable-Plan		-		-
Remitence Other Institutions		79,263.00		79,263.00
TOTAL		542,453.00		542,453.00
15.Provisions-Non Plan		-		-
Pay V C Office		268,787.00	(41,653.00)	227,134.00
Pay Non Academic Staff		2,264,915.00	710,951.00	2,975,866.00
Wages		115,100.00	(115,100.00)	-
Arrear of DA		-		-
Medical Exps		24,000.00	(24,000.00)	-
Pension		-	4,137.00	4,137.00
Family Pension		-	13,361.00	13,361.00
House-keeping		8,157.00	(8157.00)	-
Maintenance of Building				-
Electrcity Exps				-
Maintenance of Computers				-
Telephone exps				-
Reimbursement of Tution Fee/CEA				-

Publication -Prospectus				-
Printing & Stationery				-
Security Exps-Campus				-
Expenditure on Univerity Website				-
Equipment dr. anand Prakash		62,782.00		62,782.00
Remuneration to Examiner		129,345.00		129,345.00
Pay Academic		3,164,472.00	446,795.00	3,611,267.00
DIFF Other		77,541.00		77,541.00
TOTAL (B)		6,115,099.00		7,101,433.00
TOTAL (A + B)		75,498,506.19		104,591,806.19
Provisions-XII Plan				-
Pay -Teaching		4,811,450.00	(37,714)	4,773,736.00
Pay -Non Teaching		145,434.00	18,926	164,360.00
Pay -CSSEIP Teaching		251,455.00	27,097	279,362.00
Pay -CSSEIP Non Teaching		121,463.00	14,647	136,110.00
Payment to House Keeping		702,418.00	(702,418.00)	-
Electricity Exp		716,441.00	(716,441.00)	-
TOTAL (c)		6,748,661.00		5,353,568.00
TOTAL (A + B+C)		82,247,167.19	(8,291,051.00)	109,945,374.19

SCHEDULE 4-FIXED ASSETS

S. No.	DESCRIPTION	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK		
		Rate of Depreciation (%)	Cost/ Valuation as at beginning of the year	Additions during the year		Deduction / trf WIP	Cost/ Valuation at the year end	As at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Total up to year end	As at the Current Year ended 31.03.2014	As at the Previous Year ended 31.3.2013
				Upto 30.09.2013	After 30.09.2013								
A. Fixed Assets													
1. LAND													
a)	Freehold												
b)	Lessehold	-	146,553,297.00			-	146,553,297.00				146,553,297.00	146,553,297.00	
2. BUILDINGS													
a)	On Freehold		-			-	-					-	
b)	On Leasehold Land		-			-	-					-	
i.	Buidling & Architectural Work	10.00	13,205,491.28			-	13,205,491.28	8,850,088.73	1,320,549.13		10,170,637.86	11,884,942.15	13,205,491.28
ii.	Administrative Block	10.00	35,512,255.24			-	35,512,255.24	7,402,977.69	3,551,225.52		10,954,203.21	31,961,029.72	35,512,255.24
iii.	Girls Hostel	5.00	38,593,496.51		1,168,669.00	1,168,669.00	39,762,165.51	12,981,843.50	1,958,891.55		14,940,735.05	37,803,273.96	38,593,496.51
iv.	Boundary Wall	5.00	1,031,477.44			-	1,031,477.44	222,707.56	51,573.87		274,281.43	979,903.57	1,031,477.44
v.	Site/Campus Development	5.00	14,597,619.98			-	14,597,619.98	8,116,342.03	729,881.00		8,846,223.03	13,867,738.98	14,597,619.98
vi.	Consultation fee to NBCC for Master Plan	5.00	1,362,689.72			-	1,362,689.72	913,249.73	68,134.49		981,384.22	1,294,555.23	1,362,689.72
vii.	Consultation fees to UPRNN	5.00	314,097.23			-	314,097.23	210,502.77	15,704.86		226,207.63	298,392.37	314,097.23
viii.	Construction of SAS Building, Guest House	5.00	11,516,110.83			-	11,516,110.83	6,408,050.17	575,805.54		6,983,855.71	10,940,305.29	11,516,110.83
ix.	Furnishing of VC Block	5.00	50,589.80			-	50,589.80	33,904.20	2,529.49		36,433.69	48,060.31	50,589.80
x.	Infrastrcture for Hostel/Guest House	5.00	1,021,844.08			-	1,021,844.08	310,206.92	51,092.20		361,299.12	970,751.88	1,021,844.08
xi.	Furnishing of Council Hall	5.00	1,359,957.47			-	1,359,957.47	498,179.53	67,997.87		566,177.40	1,291,959.60	1,359,957.47
xii.	Boys Hostel 2 no 272 capacity each	5.00	132,414,193.63		2,699,462.00	2,699,462.00	135,113,655.63	7,585,806.38	6,688,196.23		14,274,002.61	128,425,459.40	132,414,193.63
xiii.	Central Library-WIP	-	72,457,767.50				72,457,767.50	-	4,113,147.50		-	-	72,457,767.50
3.	LAB EQUIPMENT -USIC	15.00	24,122,787.05			-	24,122,787.05	2,788,938.96	361,841.81		3,150,780.77	23,760,945.24	24,122,787.05
4.	VEHICLES	15.00	8,011,680.34			-	8,011,680.34	3,604,933.44	400,584.02		4,005,517.46	7,611,096.32	8,011,680.34
5.	FURNITURES & FIXTURES	10.00	3,794,204.45	2,193,073.00	9,388,115.00	11,581,188.00	15,375,392.45	1,048,693.55	1,068,133.50		2,116,827.05	14,307,258.96	3,794,204.45
6.	OFFICE EQUIPMENTS	15.00	1,075,090.40			-	1,075,090.40	4,898,829.60	161,263.56		5,060,093.16	913,826.84	1,075,090.40
4.	Oherhead Tank 1000 kl/tubelwell	-	43,518,860.00			-	43,518,860.00	-	-		-	-	43,518,860.00
8.	ELECTRIC INSTALLATIONS (ELECTRIC SUBSTATIC)	10.00	1,607,099.24			-	1,607,099.24	7,950,362.76	160,709.92		8,111,072.68	1,446,389.32	1,607,099.24
9.	BOOK & JOURNALS	60.00	15,703,727.99			-	15,703,727.99	16,805,511.02	9,422,236.79		26,227,747.81	6,281,491.20	15,703,727.99
10.	TUBEWELLS & WATER SUPPLY	15.00	159,345.02			-	159,345.02	1,175,955.68	23,901.75		1,199,857.43	135,443.27	159,345.02
11.	COMPUTERISATION OF OFFICE	60.00	9,639,216.49	1,293,643.00		1,293,643.00	10,932,859.49	6,624,196.51	6,559,715.69		13,183,912.20	4,373,143.80	9,639,216.49
12.	FURNITURE & OTHER CAPITAL ITEMS	10.00	6,819,754.03			-	6,819,754.03	7,602,774.97	681,975.40		8,284,750.37	6,137,778.63	6,819,754.03
13.	EPABX	15.00	43,538.98			-	43,538.98	321,310.02	6,530.85		327,840.87	37,008.13	43,538.98
14.	EQUIPMENTS	15.00	27,785,039.32	4,732,581.91	26,462,115.00	31,194,696.91	58,979,736.23	26,953,627.34	8,846,960.43		35,800,587.77	50,132,775.80	27,785,039.32
15.	Construction of Building of Bio science/Biotechnology phase-I	5.00	55,257,301.95			-	55,257,301.95	-	2,908,279.05		-	-	55,257,301.95

16. LIBRARY EQUIPMENTS	10.00	97,721.83			-		97,721.83	168,784.17	9,772.18		178,556.35	87,949.65	97,721.83
17. DEPARMENT EQUIPMENTS	10.00	10,798,195.59			-		10,798,195.59	2,567,704.41	1,079,819.56		3,647,523.97	9,718,376.03	10,798,195.59
18. Construction Virtual Class Room	15.00	470,015.87	83,687.00		83,687.00		553,702.87	233,271.73	83,055.43		316,327.16	470,647.44	470,015.87
19. Furnishing of Building of SES	5.00	3,140,740.61			-		3,140,740.61	421,553.39	157,037.03		578,590.42	2,983,703.58	3,140,740.61
20. Shifting of Statute of Dr. Ambedkar	-	14,751,486.75			-	14,751,486.75	-	378,243.25		378,243.25	-	-	14,751,486.75
21. Construction of Building of legal studies school	-	26,190,188.70			-	26,190,188.70	-	671,543.30		671,543.30	-	-	26,190,188.70
22. Extension of Rearing House	5.00	3,416,775.38			-	131,379.00	3,285,396.38	87,609.63	170,838.77		258,448.40	3,114,557.61	3,416,775.38
23. Construction og Health Centre	-	18,395,325.00			-	18,395,325.00	-	471,675.00		471,675.00	-	-	18,395,325.00
TOTAL (A)		744,788,982.70	8,302,984.91	39,718,361.00	48,021,345.91	230,702,308.90	562,108,019.71	145,330,804.49	44,275,958.46	8,542,888.10	181,063,874.85	517,832,061.25	744,788,982.70
B. Capital Work in Progress													
(a) Construction Activities Payment to CPWD as an Advance as deposit work													
1. Construction of External Services Road Drainage/footpath etc		73,882,741.00	19,350,290.00	9,704,602.00	29,054,892.00		102,937,633.00					103,437,633.00	73,882,741.00
2. Construction Virtual Class Room		83,687.00			-	83,687.00	-					-	83,687.00
3. Construction/Creation of Central Facility		1,267,661.00			-		1,267,661.00					1,267,661.00	1,267,661.00
4. Construction of Central Library		94,493,908.00	16853590	149,051,239.50	165,904,829.50		260,398,737.50					260,398,737.50	94,493,908.00
5. Construction of Auditorium of 1200capacity		137,220,722.00	59,626,438.00	62,126,427.00	121,752,865.00	22,500,000.00	236,473,587.00					236,973,587.00	137,220,722.00
15. Construction of Building of Bio science/Biotechnology phase-I				55,257,301.95	55,257,301.95		55,257,301.95					55,257,301.95	
20. Shifting of Statute of Dr. Ambedkar				14,751,486.75	14,751,486.75		14,751,486.75					14,751,486.75	
21. Construction of Building of legal studies school			319,400.00	32,382,333.70	32,701,733.70		32,701,733.70					32,701,733.70	
23. Construction og Health Centre			1,356,000.00	18,395,325.00	19,751,325.00		19,751,325.00					19,751,325.00	
6. Oherhead Tank 1000 kl/tubelwell				43,518,860.00	43,518,860.00		43,518,860.00					43,518,860.00	
Total (B)		306,948,719.00	97,505,718.00	385,187,575.90	482,693,293.90	22,583,687.00	767,058,325.90	-	-	-	-	768,058,325.90	306,948,719.00
Total (A + B)		1,051,737,701.76	105,808,702.91	424,905,936.90	530,714,639.81	253,285,995.90	1,329,166,345.61	145,330,804.49	44,275,958.46	8,542,888.10	181,063,874.85	1,285,890,387.15	1,051,737,701.70

Schedule 5: Current Assets, Loans & Advances

	Particulars	Previous Year	Current Year
A	Current Assets:		
1	Inventories - Stationery, Cleaning Material, Building Material, Electrical Material, Lab Chemicals & Spares and Water Supply Material		
2	Cash and Bank Balances:		
a	Cash in hand	51,191.00	250,271.00
b	Bank Balances with scheduled banks		
	- in saving accounts(Annexure-A)	781,789,653.66	380,879,328.47
	- in current accounts		
	- in Deposit account		
	Total A	781,840,844.66	381,129,599.47

Schedule 5: Current Assets, Loans & Advances

	2012-13	ADDITION 2013-14	As on 31-3-2014
Advances & Other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :			
On Capital Account	209,714,083.00		209,714,083.00
GIS	-		-
Others	420,000.00		420,000.00
			-
Claims Receivable : Deposits in High Court	408,801.00		408,801.00
10% Payment by State Govt. for Add. Land	10,000,000.00		10,000,000.00
Development Grant(XITH PLAN)-PLAN	1,030,220.00		1,030,220.00
Vehicle Advance	2,370,146.00	(83,070.00)	2,287,076.00
Festival Advance	81,600.00	(10,125.00)	71,475.00
Advance to UP JAL NIGAM(PLAN)	500,000.00	(500,000.00)	
Advance to UPRNN(PLAN)	500,000.00	(500,000.00)	
Advance to Staff	1,957,257.00	1,376,109.00	3,333,366.00
TA Advance	46,702.00	35,042.00	81,744.00
LTC Advance	3,798,376.00	5,906.00	3,804,282.00
Cycle Advance	593,484.00	(4,500.00)	588,984.00
Trade Tax	6,722.00	(6,722.00)	
NPS	9,814,310.19		9,814,310.19.00
GPF Advance recovery	2,600.00		2,600.00
Medical Advance	-		-
House Building Advance-plan/non plan	63,841.00	(375.00)	63,466.00
Maintenance of Building(Plan)	11,280.00		11,280.00
Computer Advance	1,332,773.00	(237,064.00)	1,095,709.00
Deposit in RLC (Non Plan)	42,410.00		42,410.00
TOTAL (B)	242,694,605.19	75,201.00	242,769,806.19

Annexure-A**BANK ACCOUNT NAME****Amount in Rs**

Savings Bank Account	2013-14	2012-2013
Canara Bank Non Plan A/c 60	90,518,584.65	42,154,658.64
Canana Bank Dr. A.Prakash Dst (2922)	73,440.00	292,363.00
Canara Bank (Abha Mishra Dbt Project) 2783	202,820.00	239,934.00
Canara Bank (A/c No. 779) Plan	124,988,777.57	403,017,906.57
Canara Bank (Ambedker Study Centre 2167)	243,962.00	234,489.00
Canara Bank Babu Jag Boys (2599)	-	1,082,917.00
Canara Bank Babu Jag Girls (2733)		1,138,485.00
Canara Bank Computer Centre (2622)		1,010,039.00
Canara Bank CSSEIP (2641)	395,163.00	823,408.00
Canara Bank Debt Deposit (A/C 0190)	5,688,771.18	2,376,678.93
Canara Bank Dr. A.P. Dbt Project (2767)	652,228.00	340,965.00
Canara Bank Dr. A.P. Ugc Mrp (2921)	367,614.00	571,037.00
Canara Bank Dr. N.K.Arora Ugc Mrp 2840	11,252.00	202,667.00
Canara Bank Emf (191)	24,281,150.03	10,435,612.03
Canara Bank (Hba Revolving Fund 0279)	295,961.00	274,121.00
Canara Bank Icssr Prof Narendra Kumar (3086)	628,443.00	1,289,668.00
Canara Bank JRF (2904)	108,056.00	7,388,923.00
Canara Bank Manish Kr. Verma Ugc Mrp 2642	-	341,055.00
Canara Bank (Media Center) 4045	7,632,404.00	9,005,862.00
Canara Bank Nps (555)	10,224,127.19	6,249,060.19
Canara Bank Pension Fund A/c No. 4047	8,424,397.00	8,042,959.00
Canara Bank Plan XII Plan (3895)	35,747,822.45	217,467,618.30
Canara Bank Prof.Narendra Kr Pol Sc Ugc Mrp 4064	441,565.00	424,407.00
Canara Bank Prof Ram Chandra (2817)	296,447.00	369,498.00
Canara Bank Rca (2086)	29,684,658.00	40,065,007.00
Canara Bank RGNf (2600)	19,094,660.00	21,613,257.00
Canara Bank (Sap Siology 2841)	142,086.40	1,136,621.00

Canara Bank Sc/st Scholarship (0081)	1,043,737.00	1,013,014.00
Canara Bank Startup Grant (Ac No. 4063)	1,722,221.00	2,762,896.00
Canara Bank Ugc Mrp Dr. Narendra Kumar DES (4046)	51,354.00	424,527.00
ET- 2013 (5047)	-	
Education(5155)	8,591,230.00	
Dr. Gaurav Kaithwas (5292)	2,686,432.00	
Dr. Ram Naresh Bhargava (5293)	2,413,426.00	
Dr. Sudita Saha (5294)	697,772.00	
Finance Officer, BBAU Lko (New Courses) (5295)	3,528,767.00	
Grand Total	380,879,328.47	781,789,653.66

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH 2014**

Schedule-6 Grants/Subsidies**Amount in Rs.**

Particulars	Plan		Total Plan	Non Plan	Current year	Previous Year	
	Govt. of India	UGC					
		Plan		XII Plan	UGC	Total	Total
Balance B/F							
Add: Receipts During the year		1,505,408.00	100,050,000.00	216,122,000.00	317,677,408.00	621,665,866.00	
Total			101,555,408.00	216,122,000.00	317,677,408.00	621,665,866.00	
Less: Refund to UGC				-	-		
Balance			101,555,408.00	216,122,000.00	317,677,408.00	621,665,866.00	
Less: Utilised for Capital Expenditure (A)					-		
(Fund Transfer School of Education)		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		
Balance			51,555,408.00	216,122,000.00	267,677,408.00	621,665,866.00	
Less: Utilised for Revenue Expenditure (B)					-		
Balance C/F (C)			51,555,408.00	216,122,000.00	267,677,408.00	621,665,866.00	

Schedule 7 : Academic Receipts**Amount in Rs.**

Particulars	Current year	Previous year
A. Fees from Students		
a) Academic	7,279,006.71	4,050,884.00
1. Admission fees		
2. Enrolment fees		
i. Tution fees		
ii. Library fees	-	
iii. Others		
b) Examination		
1. Annual examination fees		
2. Marks sheet fees		
3. Others-Registration Fees, Overhead Charges		
c) Other fees	437,479.00	3,476,168.00
1. Medical fees		
2. Convocation Fees		
3. Other Miscellaneous fees		
d) Hostel fees		
B) Sale of Admission forms / Prospectus		
C) Sale of Question Papers		
Total	7,716,485.71	7,527,052.00

Schedule 8 : Income from Investments**Amount in Rs.**

Particulars	Earmarked / Endowment Funds		Plan / Non-Plan	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year
1. Interest				
a. On Government Securities				
b. On Debantures & Bonds				
2. On Term Deposits with scheduled Banks				
3. On Advances (HBA & MCA) (Accrued)			45,730.00	45,126.00
4. On savings Accounts with scheduled banks	4,401,047.00	3,075,306.00	21,132,560.00	17,152,599.00
Total		3,075,306.00	21,178,290.00	17,197,725.00
Transferred to respective Earmarked/Endowment Fund				
Balance	Nil	Nil		

Schedule 9 – Other Income**Amount in Rs.**

	Particulars	Current Year	Previous Year
1)	Licence Fee from quarters	373,213.00	388,693.00
2)	Rent from Guest House	37,520.00	13,500.00
3)	Rent from shops, Accommodation-Post office, Bank etc.	-	
4)	Leave Salary and Pension Contribution	-	569,556.00
5)	Income from Sponsored Schemes / Consultancy Projects	1,120,484.00	
6)	Charges for use of Transport	-	
7)	Water & Electricity charges	712,640.00	1,907,333.00
8)	Books & Journal	-	6,718.00
9)	Recoveries	146,954.00	
10)	Miscellaneous income (Sale Proceeds of unserviceable stores/empties, waste paper, Tender papers, Fines and, other miscellaneous income)	9,844,031.06	705,808.00
	Total	12,234,842.06	3,591,608.00

Schedule 10 – Establishment Expenses**Amount in Rs.**

Particulars		Current Year				Previous Year			
		XII Plan	Plan	Non Plan	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Total
a	Salaries, Wages and Allowances	66,798,942.00	-	85,272,057.00	152,070,999.00	37,761,265.00	25,473,163.00	76,240,908.00	139,475,336.00
b	Contribution to Provident Fund		-	454,983.00	454,983.00		146,890.00	249,200.00	396,090.00
c	Contribution to Other Funds (N P S)	4,027,648.00	-	2,001,506.00	6,029,154.00	1,878,903.00	1,797,020.00	7,308,727.00	10,984,650.00
d	Bonus	34,540.00		246,842.00	281,382.00			264,400.00	264,400.00
e	Leave Travel Concession			3,267,844.00	3,267,844.00				-
f	Medical Reimbursement			510,000.00	510,000.00			1,655,112.00	1,655,112.00
g	Contribution to CGHS				-				-
h	Tuition Fee Reimbursement			-	-			1,478,869.00	1,478,869.00
i	Staff Welfare Expenses				-				-
j	Employees' Retirement and Terminal Benefits (Pension, Gratuity, Leave Encashment)	221,512.00		2,406,067.00	2,627,579.00			2,907,113.00	2,907,113.00
k	Fees & Honorarium	2,012,937.00	-	338,048.00	2,350,985.00	55,000.00	221,000.00	2,000.00	278,000.00
l	Leave Salary and Pension Contribution	117,352.00		247,497.00	364,849.00			158,713.00	158,713.00
m	Others-Family Pension			441,543.00	441,543.00			339,071.00	339,071.00
Gross Total		73,212,931.00	-	95,186,387.00	168,399,318.00	39,695,168.00	27,638,073.00	90,604,113.00	157,937,354.00

Schedule 11 – Academic Expenses**Amount in Rs.**

Particulars	Current Year				Previous Year			
	XII Plan	Plan	Non Plan	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Total
1 Laboratory Running Expenses	2,139,433.00		4,401,536.00	6,540,969.00	4,437,078.00		406,015.00	4,843,093.00
2 Fieldwork / Participation in Conferences	3,693,426.00		6,463,701.00	10,157,127.00		30,281.00		30,281.00
3 Teaching Aids				-		34,497.00		34,497.00
4 Seminars / Workshops				-	1,318,731.00		937,478.00	2,256,209.00
5 NKN virtual classroom			1,978.00	1,978.00			20,315.00	20,315.00
6 Research Activities				-	6,370,421.00	1,787,849.00		8,158,270.00
7 Examination/Entrance Test			3,926,868.00	3,926,868.00			2,653,595.00	2,653,595.00
8 Student Welfare Expenses				-		1,453,210.00	14,700.00	1,467,910.00
9 Scholarship/Stipend to Students				-		931,732.00		931,732.00
10 Journals & Publications	12,571,584.00			12,571,584.00			816,829.00	816,829.00
11 Educational tours			20,541.00	20,541.00			40,943.00	40,943.00
12 Library exps			32,282.00	32,282.00			43,032.00	43,032.00
13 Academic activities (Various deptt)			959,858.00	959,858.00			1,198,946.00	1,198,946.00
14 Sports Activities	1,796,000.00		3,434,327.00	5,230,327.00		68,405.00	13,401.00	81,806.00
15 UGC research Fellowship	10,601,184.00			10,601,184.00				
Gross Total	30,801,627.00	-	19,241,091.00	50,042,718.00	12,126,230.00	4,305,974.00	6,145,254.00	22,577,458.00

Schedule 12 – Administrative Expenses**Amount Rs**

Particulars		Current Year				Previous Year			
		XII Plan	Plan	Non Plan	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Total
A	Infrastructure								
	D) Proctor office			112,924.00	112,924.00			4,949.00	4,949.00
	II) Electricity Expenses	2,750,644.00		9,141,083.00	11,891,727.00	2,212,578.00		7,712,847.00	9,925,425.00
	III) Placement exps			605,276.00	605,276.00			11,685.00	11,685.00
	IV) Security Expenses	2,288,301.00		7,751,282.00	10,039,583.00		117,143.00	1,772,445.00	1,889,588.00
	V) Vehicle Running Expenses			1,541,818.00	1,541,818.00	184,946.00		687,796.00	872,742.00
	VI) Insurance			57,489.00	57,489.00			71,573.00	71,573.00
	VII) I & GB-misc			14,849.00	14,849.00			10,775.00	10,775.00
B	Communication				-				-
	D) Postage & Telegram			109,173.00	109,173.00			79,154.00	79,154.00
	II) Telephones & Fax			743,946.00	743,946.00	12,411.00		591,741.00	604,152.00
	III) Internet Connectivity Charges			69,652.00	69,652.00			45,787.00	45,787.00
C	Training/ W.S of staff			500.00	500.00			33,708.00	33,708.00
D	DSW office			5,547.00	5,547.00			15,553.00	15,553.00
E	Advertisement and Publicity	12,465,690.00		2,859,305.00	15,324,995.00	23,447.00		1,754,085.00	1,777,532.00
F	Legal Expenses			581,850.00	581,850.00			783,642.00	783,642.00
G	Others				-			-	-
	D) Printing and stationery (consumption)	719,645.00		2,959,257.00	3,678,902.00	170,422.00		295,413.00	465,835.00
	II) Newspapers & periodicals			22,487.00	22,487.00			28,645.00	28,645.00
	III) Travel & Conveyance	401,010.00	40,000.00	1,068,944.00	1,509,954.00	45,312.00	3,300.00	593,852.00	642,464.00
	IV) Secret & Confidential work			20,149.00	20,149.00			112,275.00	112,275.00
	V) Consultancy Fees				-			323,981.00	323,981.00
	VI) Bank charges	3,245.00	439.00	4,569.00	8,253.00			4,712.00	4,712.00
	VII) Meeting expenses			4,664,314.00	4,664,314.00			2,685,023.00	2,685,023.00
	VIII) Membership Fees	100.00		834,338.70	834,438.70			148,692.00	148,692.00
	IX) NSDL fees			18,610.00	18,610.00			32,730.00	32,730.00
	X) Dissertation work			62,573.00	62,573.00			71,159.00	71,159.00

XI)	Local Conveyance					-		670.00	670.00
XII)	USIC			123,812.00	123,812.00			180,094.00	180,094.00
XIII)	Liveries					-		11,937.00	11,937.00
XIV)	Office contingency			827,267.00	827,267.00			643,476.00	643,476.00
XV)	Exps on visit of VIP guests			108,900.00	108,900.00			86,234.00	86,234.00
XVI)	Other miscellaneous administrative expense	1,071,863.00		4,568,165.00	5,640,028.00	60,126.00	2,168.00	408,945.00	471,239.00
XVII)	VAT Paid			6,722.00		-		120,615.00	120,615.00
XVIII)	Income Tax					-		31,513.00	31,513.00
Gross Total		19,700,498.00	40,439.00	38,884,801.70	58,619,016.70	2,709,242.00	122,611.00	19,355,706.00	22,187,559.00

Schedule 13 – Repairs & Maintenance**Amount in Rs.**

Particulars	Current Year				Previous Year			
	XII Plan	Plan	Non Plan	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Total
a) House keeping	2,103,236.00		15,567,658.00	17,670,894.00	702,418.00		8,848,171.00	9,550,589.00
b) Gardening/Animal house			843,196.00	843,196.00			152,827.00	152,827.00
c) Maintenance of Buildings	828,623.00		3,277,891.00	4,106,514.00			779,925.00	779,925.00
d) Maintenance of Deptt/Campus	130,279,092.00		3,558,019.00	133,837,111.00	105,154.00		708,976.00	814,130.00
e) Maintenance of Office Equipment			631,965.00	631,965.00			451,551.00	451,551.00
f) Maintenance of Computers			588,152.00	588,152.00			294,823.00	294,823.00
g) Maintenance of Vehicles				-				-
h) Maintenance of Furniture & Fixtures				-				-
i) Maintenance of Lab Equipments				-				-
j) Guest house charges	2,756,660.00		567,995.00	3,324,655.00	15,000.00		105,560.00	120,560.00
k) Miscellaneous(Girls Hostel)		8,028,144.00	75,676.00	8,103,820.00		107,125.00	49,195.00	156,320.00
l) Miscellaneous(Boys Hostel)	396,636.00		256,007.00	652,643.00			69,617.00	69,617.00
m)Sanitaion	179,824.00		2,773,602.00	2,953,426.00			1,072,235.00	1,072,235.00
Gross Total	136,544,071.00	8,028,144.00	28,140,161.00	172,712,376.00	822,572.00	107,125.00	12,532,880.00	13,462,577.00

**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR
THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014**

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

RECEIPTS	Amount	PAYMENTS	Amount
Opening Balances			
a) Cash in hand	51,191.00	I) Expenditure :	88,733,918.70
b) Bank Balances	781,789,653.66	a) Establishment	88,825,031.00
		b) Administrative	88,825,031.00
		c) Purchase of Fixed Assets Plan	254,081,726.00
		d) Purchase of Fixed Assets XII Plan	54,006,440.91
Grant Received	404,005,069.00		
		e) Exp To Other Accounts	410,618,235.66
Academic Receipts	28,785,546.77	f) FDR	
Interest Received	32,526,400.00		
Withheld Amount	4,897,512.00		
		II. Closing Balances	
Other Receipts	35939841.31	a) Cash in hand	250,271.00
		b) Bank Balances	380,879,328.47
	-		
Total	1,287,995,213.74	Total	1,287,995,213.74

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
PROVIDENT FUND ACCOUNT
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

Liability	Previous Year	Previous Year	Current Year	Current Year	Assets	Previous Year	Current Year
<u>GPF</u>					Investment/FDR	32,127,394.00	41,127,656.00
Opening Balance	28,348,263.00		32,830,011.00		Int. accrued as on 31/03/....		
Less: Sub. for March					Sub. Due for March ,...		
	28,348,263.00		32,830,011.00		GPF		
Add: Subscription	6,908,842.00		6,967,393.00		CPF		
Less: Advance/withdrawal	2,427,094.00	32,830,011.00	(5,731,300.00)	34,066,104.00	Cash in Hand		
<u>CPF</u>					Canara Bank A/c No-0190	2,376,679.00	5,688,771.00
Opening Balance			(2,064,980.00)				
Less: Sub. for March							
Add: Subscription	92,427.00		742,500.00				
Add: Interest Credited							
Add: Sub for March							
Less: Advance/withdrawal	2,157,407.00	(2,064,980.00)		(1,322,480.00)			
<u>University Contribution</u>							
Opening Balance			333,180.00				
Less: Contribution for March							
Add: Contribution during the year	333,180.00						
Add: Interest Credited							
Add: Contribution for March							
Less: Advance/withdrawal		333,180.00		333,180.00			
Earnest Money/Security Deposit		100,466.00		4,671,335.00			
<u>Interest Reserve</u>							
Opening Balance			3,305,396.00				
Add: Excess of Income over Exp.		3,305,396.00	5,762,892.00	9,068,288.00			
Total		34,504,073.00		46,816,427.00		34,504,073.00	46,816,427.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
PROVIDENT FUND ACCOUNT
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/03/2014

Expenditure	Previous Year	Current Year	Income	Previous Year	Current Year
Interest Credited to:			Interest earned	3,303,076.00	5,763,735.00
GPF Account					
CPF Account					
University Contribution					
Bank Charges	224.00	843.00	Misc Income	2,544.00	
Excess of Income over Expenditure	3,305,396.00	5,762,892.00	Excess of Expenditure over Income		-
Total	3,305,620.00	5,763,735.00	Total	3,305,620.00	5,763,735.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
PROVIDENT FUND ACCOUNT
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014

Receipts	Current Year		Previous Year		Payments	Current Year		Previous Year	
Opening Balance					GPF Advance	542,700.00		268,350.00	
Canara Bank A/c No-0190	2,376,679.00		3,848,263.00		GPF Withdrawal	5,696,334.00		2,793,378.00	
FDR	24,500,000.00	26,876,679.00	24,500,000.00	28,348,263.00	CPF Adv./ Withdrawal			2,157,407.00	
					University Contribution Withdrawal		6,239,034.00		5,219,135.00
GPF Subscription	6,967,393.00		6,908,842.00						
CPF Subscription	742,500.00		92,427.00		Investment during the year (FDR)		9,000,262.00		7,627,394.00
University Contribution -CPF		7,709,893.00	333,180.00	7,334,449.00					
					Bank Charges		843.00		224.00
Earnest Money/ security Deposit		4,570,869.00		100,466.00					
GPF/CPF Advance Recovery		507,734.00		634,634.00	Closing Balance:-		-		-
Interest Received - SB A/C	163,473.00		175,682.00		Canara Bank A/c No-0190	5,688,771.00		2,376,679.00	
Interest Received - FDR A/C	5,600,262.00	5,763,735.00	3,127,394.00	3,303,076.00	FDR	24,500,000.00	30,188,771.00	24,500,000.00	26,876,679.00
Misc Income				2,544.00					
Investment Encashed									
Total		45,428,910.00		39,723,432.00	Total		45,428,910.00		39,723,432.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
NPS ACCOUNT
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

Liabilities	Previous Year	Current Year	Assets	Previous Year	Current Year
Opening Balance	3,627,800.19	6,749,060.19	Investments/FDR	500,000.00	500,000.00
			Balance at Bank	6,249,060.19	10,224,127.19
Add: Sub+UC	2,945,587.00	3,647,317.00			
Excess of Income over Expenditure	175,673.00	327,750.00			
Total	6,749,060.19	10,724,127.19	Total	6,749,060.19	10,724,127.19

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
NPS ACCOUNT
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2014

Expenditure	Previous Year	Current Year	Income	Previous Year	Current Year
Interest Credited to Subscribers Accounts			Interest Earned on Investment	176,093.00	328,103.00
Bank Charges	420.00	353.00			
Excess of Income over Expenditure	175,673.00	327,750.00	Add: Interest Accrued 31/03/....		
			Less: Interest Accrued 31/03/....		
Total	176,093.00	328,103.00	Total	176,093.00	328,103.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
NPS ACCOUNT
RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2013-14

Receipt	Previous Year		Current Year		Payments	Previous Year		Current Year	
	Opening Balance	3,127,800.19		6,249,060.19					
OP FDR	500,000.00	3,627,800.19	500,000.00	6,749,060.19	Investment				
NPS Account									
Own Subscription	1,471,888.00		1,823,659.00						
University Contribution	1,473,699.00	2,945,587.00	1,823,658.00	3,647,317.00					
Interest Received					Bank Charges		420.00		353.00
Int. on SB A/c & FD		176,093.00		328,103.00	Closing Balance	6,249,060.19		10,224,127.19	
					FDR	500,000.00	6,749,060.19	500,000.00	10,724,127.19
Total		6,749,480.19		10,724,480.19	Total		6,749,480.19		10,724,480.19

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
ET
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

Liabilities	Previous Year	Current Year	Assets	Previous Year	Current Year
Opening Balance			Transfer To Non Plan A/c		6,721,584.06
Add: Surplus		6,721,584.06	Balance at Bank		-
Total		6,721,584.06	Total	-	6,721,584.06

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
ET
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2014

Expenditure	Previous Year	Current Year	Income	Previous Year	Current Year
			Interest Earned on Investment		233,781.00
Trade Tax		324,391.00			
			Misc Income		6,812,194.06
Excess of Income over Expenditure		6,721,584.06			
Total	-	7,045,975.06	Total	-	7,045,975.06

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
ET
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014

Receipts	Current Year	Previous Year	Payments	Current Year	Previous Year
Opening Balance			Trade Tax	324,391.00	
Canara Bank A/c No-5047			Transfer To XII Plan A/c	6,721,584.06	
Interest Recd :					
Interest Received -SB A/C	233,781.00				
Interest Received -FDR A/C			Closing Balance:-	-	
			Canara bank Et 5047	-	
Misc Income	6,812,194.06				
Total	7,045,975.06	-	Total	7,045,975.06	-

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
EDUCATION
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

Liabilities	Previous Year	Current Year	Assets	Previous Year	Current Year
FUND			Construction of SBBT Building		40,000,000.00
Opening Balance			Investments/FDR		1,600,000.00
		-	Balance at Bank		8,591,230.00
			Adv To Staff		24,408.00
Add: Surplus		50,215,638.00			
Total		50,215,638.00	Total	-	50,215,638.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
EDUCATION
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2014

Expenditure	Previous Year	Current Year	Income	Previous Year	Current Year
		-	Interest Earned on Investment		583,621.00
Bank Charges		17.00			
Contingency		114,606.00	Grant In aid		50,000,000.00
Equipment		77,750.00			
Guest Faculty		107,000.00			
Meeting Exp		68,610.00			
Excess of Income over Expenditure	-	50,215,638.00			
Total	-	50,583,621.00	Total	-	50,583,621.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
EDUCATION
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014

Receipts	Current Year	Previous Year	Payments	Current Year	Previous Year
Opening Balance			FDR	1,600,000.00	
Canara Bank A/c No-5155			Adv To Staff	24,408.00	
			Construction Of SBBT Building	40,000,000.00	
			Contingency	114,606.00	
Grant Recd :			Equipment	77,750.00	
Grant Plan A/c			Guest Faculty	107,000.00	-
Grant in Aid	50,000,000.00		Meeting Exp	68,610.00	
					-
Interest Recd :	-		Bank Charges	17.00	
Interest Received -SB A/C	583,621.00				
			Closing Balance:-		
			Canara Bank A/c No-5155	8,591,230.00	
Total	50,583,621.00	-	Total	50,583,621.00	-

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
NEW COURSES
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

Liabilities	Previous Year	Current Year	Assets	Previous Year	Current Year
			Adv To Staff		119,427.00
Opening Balance	-		Extension of SBBT Building	-	10,000,000.00
Surplus		13,648,194.00	Balance at Bank	-	3,528,767.00
	-				
		-			
Total		13,648,194.00	Total	-	13,648,194.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
NEW COURSES
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2014

Expenditure	Previous Year	Current Year	Income	Previous Year	Current Year
Adv To Staff	-	-	Interest Earned on Investment	-	37,823.00
Chemical -Food Micro & Toxicology	-	410,087.00			
Contingency		219,195.00	Income From fee		14,694,346.00
Equipment	-	186,668.00			
Furniture	-	113,400.00			
Guest Faculty CMCA		36,000.00			
Guest Faculty Community College		9,000.00			
Guest Faculty Food Micro & Toxicology		57,511.00			
Guest Faculty M-Tech		49,403.00			
Purchase Of Chemical		2,018.00			
Bank Charges		693.00			
Excess of Income over Expenditure	-	13,648,194.00			
Total	-	14,732,169.00	Total	-	14,732,169.00

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
NEW COURSES
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014

Receipts	Current Year		Previous Year	Payments	Current Year		Previous Year
Opening Balance				Adv To Staff	119,427.00		-
Canara Bank A/c No-5295	-			Chemical -Food Micro & Toxicology	410,087.00		-
		-		Contingency	219,195.00		-
				Equipment	186,668.00		
Grant Recd :				Extension of SBBT Building	10,000,000.00		
Grant Plan A/c	-		-	Furniture	113,400.00	-	
Grant in Aud	-	-	-	Guest Faculty CMCA	36,000.00		
				Guest Faculty Community College	9,000.00	-	
Interest Recd :		-		Guest Faculty Food Micro & Toxicology	57,511.00		
Interest Received -SB A/C	37,823.00		-	Guest Faculty M-Tech	49,403.00		
Interest Received -FDR A/C	-	37,823.00	-	Purchase Of Chemical	2,018.00		-
				Bank Charges	693.00	11,203,402.00	-
				Closing Balance:-			-
Income From Fee	14,694,346.00	14,694,346.00		Canara Bank A/c No-5295	3,528,767.00		
					-	3,528,767.00	
Total		14,732,169.00		Total		14,732,169.00	

Schedule 2- Corpus Fund

Amount in Rs.

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year		
Add : Recognition fees and Charges		
Add : Matching Contribution from UGC		
Add : University share of consultancy fees.		
Add : Interest on Investment		
Add : Interest on Investment of funds of Sponsored Project		
Add : Interest on Savings Bank A/c		
Add : Interest Accrued but not Due as on 31.03.....on Investment of funds of Corpus Fund		
Total	"	"
Less : Revenue Expenditure		
Less : Capital Expenditure		-
Total	"	"
Balance at the year end	"	"
Represented by		
Bank Balance		
Investment - RBI Bonds		
Investment - TDRs		
Accrued Interest		
Total	"	"

Specimen format of Sub Schedule to support the figures in the column "Endowment Funds" in the Schedule "Earmarked / Endowment Funds" forming part of the Balance Sheet.

Schedule 3 A

1. Sr. No.	2. Name of the Endowment	Opening Balance		Additions during the Year		Total		9. Expenditure on the object during the year	Closing Balance		Total (10+11)
		3. Ddownment	4. Accumulated Interest	5. Endowment	6. Interest	7. Endowment	8. Accumulated interest		10. Endowment	11. Accumulated Interest	

Notes :

1. The total of Columns 3 & 4 will appear as the Opening balance in the Column "Endowment Funds" in the Schedule of Earmarked / Endowment Funds forming part of the Balance Sheet.
2. The total of Col 9 should normally be less than the total of Col 8, as only the interest is to be used for the expenditure on the object of the endowments.
3. There should not normally be a debit balance in the schedule. If in a rare case, there is a debit balance against any of the endowment funds, the debit balance should appear on the Assets side of the Balance Sheet as "Receivables".

Sub schedule to support the head "receipts against on going Sponsored Projects" (Net of expenditure) under Current Liabilities in the Balance Sheet

Schedule: 4.5(b): Sponsored Projects

1. Sr. No.	2. Name of the Project	Opening Balance		5. Receipts / Recoveries during the Year	6. Total	7. Expenditure during the year	Closing Balance	
		3. Credit	4. Debit				8. Credit	9. Debit

Notes :

1. The Projects may be listed agency wise, sub-totals for each agency.
2. The total of Col 8 (Cr) will appear under the above head on the liabilities side of the Balance Sheet.
3. The total of Col 9 (Dr) will appear as Receivables and nder "Currnet Assets, Loans & Advances - B. Loans & Advances" on the Assets side of the Balance Sheet.

Schedule 4.5 f: Unutilised grants from UNGC, Government of India and State Government**Amount in Rs.**

	Current Year	Previous Year
A Plan grants: Govt. of India Balance B/F Add : Receipts during the year Total (a) Less : Refunds Less : Utilized for Revenue expr. Less : Utilized for capital expr. Total (b)		
Unutilized carried forward Total (a-b)		
B UGC grants : Balance B/F Receipts during the year Total (c) Less : Refunds Less : Utilized for Revenue expr. Less : Utilized for capital expr. Total (d)		
Unutilized carried forward* Total (c-d)		
C Grants from State Govt Balance B/F Add : Receipts during the year Total (e) Less : Utilized for Revenue expr. Less : Utilized for capital expr. Total (f)		
Unutilized carried forward Total (e-f)	-	-
*Grand Total (A+B+C)	"	"

*Note :- Includes advances on Capital Account

Schedule 14 - Prior Period Income**Amount in Rs.**

Particulars	Current Year	Previous Year
Prior Period Income		
Total	-	-

Schedule 15A - Employees Retirement & Terminal Benefits

Amount in Rs.

A.	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Total
Opening Balance				
Addition : Capitalized value Contribution Received from other Organizations towards Retirement benefits				
Total	-	-	-	-
Less : Actual Payment during the Year				
Balance Available on 31.03....	-	-	-	-
Provision required on 31.03.... as per Acturial Valuation				
Provision to be made in.....	-	-	-	-
B. Contribution to New Pension Scheme				
C. Medical Reimbursement to Retired Employees				
D. Travel to Hometown on Retirement				
E. Deposit Linked Insurance Payment				
Total (A+B+C+D+E)				

will be the figure against item (j) in Schedule 15

Schedule 19 - Prior Period Expenses**Amount in Rs.**

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
1. Establishment Expenses	-	-	-	-	-	-
2. Academic Expenses	-	-	-	-	-	-
3. Administrative Expenses	-	-	-	-	-	-
4. Repair & maintenance Expenses	-	-	-	-	-	-
5. Miscellaneous	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

NOTE ON ACCOUNTS

NOTES OF THE BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT ALONG WITH RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

1. Figures of the previous year have been regrouped to make them comparable with that of the current year.
2. All fixed Assets are shown at cost less depreciation except Fixed Assets purchased under Earmarked Fund. No Depreciation has been charged on such Fixed Assets.
3. Depreciation on fixed assets has been provided as per WDV method at the rates prescribed as per Income Tax Act, 1961. Depreciation for full year has been charged if the asset is put to use/purchased upto 30/09/2013 and at half rate if purchased on or after 01/10/2013.
4. The Rectification in respect of the Annual Accounts of Previous Year has been made on the basis of the CAG Audit Observations/Suggestions.
5. Certificates of the AG Office, Allahabad on such Annual Accounts have been duly considered with while framing the Annual Accounts of Financial Year 2013-14 and such figures have been regrouped wherever necessary.

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON
THE ACCOUNTS OF BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW,
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2014**

We have audited the attached Balance Sheet of Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow as at 31 March 2014, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 30 of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University's Act, 1994. These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. The standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - i. We have obtained all the information and explanations except those mentioned in this report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the common format of accounts as approved by the Government of India, Ministry of Finance.
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the University as required under Section 30 of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Act, 1994 in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv. We further report that :

Assets**Fixed Assets (Schedule-4) ₹ 128.59 Crore****(A) Balance Sheet**

(A.1) The University charged depreciation of ₹ 3.62 lakh as against the depreciation of ₹ 36.18 lakh chargeable at the rate of 15 *per cent* on Lab Equipment-USIC costing 2.41 crore.

This resulted in overstatement of Fixed Assets and understatement of deficit in the Income and Expenditure Account by ₹ 32.56 lakh.

(A.2) The University charged depreciation of ₹ 4.01 lakh only as against the depreciation of ₹ 12.02 lakh chargeable at the rate of 15 *per cent* on vehicles costing ₹ 80.12 lakh.

This resulted in overstatement of Fixed Assets and understatement of deficit in the Income and Expenditure Account by ₹ 8.01 lakh.

(A.3) The University charged depreciation of ₹ 88.47 lakh as against the depreciation of ₹ 68.62 lakh chargeable at the rate of 15 *per cent* on Equipments costing ₹ 5.90 crore.

This resulted in understatement of Fixed Assets and overstatement of deficit in the Income and Expenditure Account by ₹ 19.85 lakh.

(A.4) The University purchased Books costing ₹ 1.23 crore during the year which were not capitalized. This resulted in understatement of Fixed Assets as well as Capital Fund by ₹ 1.23 crore.

(A.5) The University is charging Depreciation on Equipments at the rate of 15 *per cent*. However, the University has charged the Depreciation on Library Equipments and Department Equipments at the rate of 10 *per cent* resulting in short charge of depreciation by ₹ 4.65 lakh.

This resulted in overstatement of Fixed Assets and understatement of deficit in the Income and Expenditure Account by ₹ 4.65 lakh.

Current Assets, Loans and Advances**Cash and Bank Balances ₹ 78.18 crore**

(A.6) The University has three Girls' Hostel and Three Boys' Hostel. All the hostels are having their separate Bank Accounts and respective cash books. The balances of these cash books were not shown under Cash and Bank Balances in the Balance Sheet resulting in understatement of Bank Balances and Current Liabilities of the University by ₹ 38.28 lakh.

(B) Income and Expenditure Account**Income****Grants in aid/Subsidies (Schedule-6) ₹ 26.77 crore**

(B.1) The University received Non-Plan grant of ₹ 21.61 crore during 2013-14, which included grant of ₹ 5.04 crore to be utilized in the year 2014-15. Instead of showing ₹ 5.04 crore under Current Liabilities as 'Grant in Advance', the entire amount of ₹ 21.61 crore was shown as the current year income of the University.

This resulted in overstatement of Income of the University and understatement of Current Liabilities by ₹ 5.04 crore.

(B.2) The University received Plant grant of ₹ 10.00 crore out of which ₹ 5.45 crore were classified as Grant of Capital Assets (Non-recurring). Instead of adding ₹ 5.45 crore to the Designated/Earmarked Fund in the Balance Sheet, it was shown as income in the Income and Expenditure Account.

This resulted in overstatement of Income of the University and understatement of Designated/Earmarked Fund by ₹ 5.45 crore.

(B.3) The University received ₹ 5.00 crore for establishment of School of Education under General Development Grant during XII Plan for the year 2012-13. However, instead of deducting it directly from the Capital Fund of the University during 2013-14, the amount of ₹ 5.00 crore was deducted from current year Plan Grant of ₹ 10.00 crore and transferred to School of Education.

This resulted in understatement of current year Income of the University by ₹ 5.00 crore.

Academic Expenses (Schedule-11) ₹ 5.00 Crore

(B.4) Although the University procured Journals and Publications of ₹ 1.26 crore, these items were not capitalised. Instead these items were shown under Academic Expense.

This resulted in overstatement of Academic Expenses by ₹ 1.26 crore and understatement of Fixed Assets as well as depreciation by ₹ 50.29 lakh and ₹ 75.43 lakh respectively.

Receipts and Payment Account

(B.5) Grants received were shown as ₹ 40.40 crore in the Receipts and Payments Account while the University had received grants of ₹ 35.40 crore only during 2013-14. On the other hand, the University had received ₹ 5.00 crore for establishment of School of Education during 2012-13 and its transfer to School of Education Account during 2013-14 was wrongly treated as utilization of funds.

This resulted in overstatement of Grants received as well as utilization of Grants by ₹ 5.00 crore.

(C) General

(C.1) The University has not disclosed its significant accounting policies in annual accounts in contravention of the provisions of the Common Format of Accounts prescribed by the Govt. of India and Accounting Standard-1.

(C.2) The University has prepared individual Balance Sheets, Income and Expenditure Accounts & Receipts and Payments Accounts for the University, Provident Fund, NPS, ET 2013, Education and New Courses. However, Consolidated Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account have not been prepared.

(C.3) No provision has been made by the University for retirement benefits of the employees on actuarial basis in contravention of the provisions of Accounting Standard-15.


(D) Management letter: Deficiencies which could not be included in the Audit Report have been brought to the notice of the management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(E) Grants-in-aid

The University is mainly funded by Grants in aid from the UGC. During the financial year 2013-14, the University received ₹ 4040.07 lakh (XI Plan ₹ 15.05 lakh + XII Plan ₹ 1000.50 lakh + Non Plan ₹ 2161.22 lakh + Others (EMF) ₹ 863.30 lakh) and generated funds of ₹ 1020.61 lakh from internal sources. The University is having opening balance of grant-in-aid of ₹ 7817.90 lakh (XI Plan ₹ 4030.18 lakh + XII Plan ₹ 2174.68 lakh + Non Plan ₹ 421.55 lakh + Others (EMF) ₹ 1191.49 lakh). Out of total available funds of ₹ 12878.58 lakh, the University incurred an expenditure of ₹ 9069.79 lakh (XI Plan ₹ 3041.21 lakh + XII Plan ₹ 2934.47 lakh + Non Plan ₹ 1838.97 lakh + Others (EMF) ₹ 1254.94 lakh) leaving a closing balance of ₹ 3808.79 lakh (XI Plan ₹ 1249.89 lakh + XII Plan ₹ 357.48 lakh + Non Plan ₹ 905.19 lakh + Others (EMF) ₹ 1296.23 lakh).

- v. Subject to our observation in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above the other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
- (a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the University as at 31 March 2014; and
- (b) In so far it relates to Income and Expenditure Account of the 'deficit' for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India



Principal Director of Audit (Central)

Place: Lucknow

Date:

ANNEXURE**1. Adequacy of Internal Audit System**

The University has not established its Internal Audit wing.

2. Adequacy of Internal Control System

The Internal Control system of the University reflected the following discrepancies:

The University does not have a full-time regular Finance Officer.

Non-adjustment of loans and advances of ₹ 20.97 crore since 2011-12.

Non-adjustment of LTC Advances of ₹ 37.98 lakh since 2011-12

Non-reconciliation of ₹ 83.76 crore and ₹ 72.73 crore pertaining to various saving bank accounts relating to period prior to 2009-10.

3. System of Physical Verification of fixed Assets

The University stated that physical verification of fixed assets was conducted during 2013-14. However, the report of physical verification was not made available to audit.

4. System of Physical Verification of Inventory.

The University stated that physical verification of inventories was carried out by the University during 2013-14. However, the report of physical verification was not made available to audit.

5. Regularity in Payment of Statutory Dues

Statutory dues are deposited regularly with appropriate authorities.



Deputy Director of Audit (Central)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड
लखनऊ

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY



• LUCKNOW •

प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

वार्षिक लेखा
वर्ष : 2013-2014

सारणी

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	तुलन पत्र	1
2	आय एवं व्यय लेखा	2
	31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र का भाग बनी अनुसूचियां	
3	अनुसूची 1- पूंजी निधि	3
4	अनुसूची 2- चिन्हित / वृत्ति निधि	4-6
5	अनुसूची 3- वर्तमान देनदारी एवं प्रावधान	7-8
6	अनुसूची 4- स्थायी परिसम्पत्तियां	9-11
7	अनुसूची 5-वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	12-13
	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा की अनुसूचियां	17
8	अनुसूची 6- अनुदान/आर्थिक सहायता	18
9	अनुसूची 7- शैक्षणिक प्राप्तियां	19
10	अनुसूची 8-आय एवं निवेश	20
11	अनुसूची 9- अन्य आय	21
12	अनुसूची 10- स्थापना व्यय	22
13	अनुसूची 11- शैक्षणिक व्यय	23
14	अनुसूची 12- प्रशासनिक व्यय	24-25
15	अनुसूची 13- मरम्मत एवं अनुरक्षण	26
	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखा का भाग बनी अनुसूचियां	27
16	प्राप्तियां एवं भुगतान ब्यौरा	28
	भविष्य निधि लेखा	
17	तुलन-पत्र-भविष्य निधि लेखा	29
19	आय एवं व्यय का लेखा-भविष्य निधि	30
20	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-भविष्य निधि	31-32
21	तुलन-पत्र-नई पेंशन योजना	33
22	आय एवं व्यय का लेखा-नई पेंशन योजना	34

23	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-नई पेंशन योजना	35
24	तुलन पत्र- ई.टी.	36
25	आय एवं व्यय लेखा - ई.टी.	37
26	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा- ई.टी.	38
27	तुलन-पत्र- शिक्षा	39
28	आय एवं व्यय लेखा- शिक्षा	40
29	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा- शिक्षा	41
30	तुलन-पत्र-नवीन पाठ्यक्रम	42
31	आय एवं व्यय लेखा - नवीन पाठ्यक्रम	43
32	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-नवीन पाठ्यक्रम	44
33	अनुसूची 3-समग्र निधि	45
34	तुलन पत्र के निर्मित हिस्से में चिन्हित/वृत्त निधियों की अनुसूची के 'वृत्ति निधियों' के स्तंभ के आंकड़ों के सहायता हेतु उप अनुसूची का नमूना प्रारूप	46
35	तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों के तहत योग (चालू प्रायोजित परियोजना की पावती) (कुल व्यय) मदों के सहायक उप अनुसूची	47
36	अनुसूची 4.5 फः यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अप्रयोज्य अनुदान	48
37	अनुसूची 14-पूर्व अवधि की आय	49
38	अनुसूची 15 अः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवा लाभ	50
39	अनुसूची 19-पूर्व अवधि का व्यय	51
40	लेखा टिप्पणी	52
41	लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र	53-58

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
तुलन पत्र - 31 मार्च, 2014

धनराशि रूपये में

पूँजी/संग्रह निधि एवं देनदारियाँ

देयतायें	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूँजीगत निधि	1	1,701,396,058.00	1,878,102,252.00
संग्रह निधि			
चिन्हित/वृत्ति निधियां	2	106,991,248.00	115,923,731.00
वर्तमान देनदारी एवं प्रावधान	3	109,945,374.00	82,247,167.00
योग		1,918,332,681.00	2,076,273,151.00
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां (शुद्ध ब्लॉक)	4	1,284,890,387.00	1,051,737,702.00
स्थायी परिसंपत्तियां (पिछले वर्ष से समायोजित)	4	8,542,888.00	
निवेश			
वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	5	623,899,406.00	1,024,535,450.00
		1,918,332,681.00	2,076,273,152.00
योग	1	1,701,396,058.00	1,878,102,252.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

धनराशि रूपये में

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. आय			
सहायता एवं वृत्ति अनुदान	6	267,677,408.00	621,665,866.00
शैक्षणिक प्राप्तियाँ	7	7,716,486.00	7,527,052.00
निवेशों से आय	8	21,178,290.00	17,197,725.00
अन्य आय	9	12,234,842.00	3,591,608.00
योग (क)		308,807,026.00	649,982,251.00
ख. व्यय			
स्थापान व्यय	10	168,399,318.00	157,937,354.00
शैक्षणिक व्यय	11	50,042,718.00	22,577,458.00
प्रशासनिक व्यय	12	58,625,739.00	22,187,559.00
मरम्मत एवं अनुरक्षणीय	13	172,712,376.00	13,462,577.00
मूल्यहास	4	44,275,958.00	28,348,160.00
मूल्यहास (पिछले वर्ष से समायोजित)	4	(8,542,888.00)	
योग (ख)		485,513,221.00	244,513,108.00
सरप्लस शेष / (घाटा) पूंजी निधि में ले जाया गया (क-ख)		(176,706,194.00)	405,469,143.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

अनुसूची 1: पूंजी निधि

धनराशि रूपये में

विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,87,81,02,252.00	147,26,33,109.00
जोड़े	पूंजीगत व्यय के उपयोग हेतु वि.अनु.आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान		
जोड़े	समग्र निधि और चिन्हित निधियों से क्रय की गई परिसम्पत्तियां*		
जोड़े	दान/उपहार स्वरूप प्राप्त परिसम्पत्तियां		
जोड़े	प्रायोजित परियोजना निधियों से क्रय की गई परिसम्पत्तियां	(176,706,194.00)	405,469,143.00
जोड़े	आय एवं व्यय लेखा से स्थानांतरित सरप्लस	1,701,396,058.00	1,87,81,02,252.00
योग			
घटायें	पिछले वर्ष से समायोजित		
घटायें	आय एवं व्यय लेखा से स्थानांतरित घाटा		
वर्ष के अंत में शेष		1,701,396,058.00	1,87,81,02,252.00

*वर्तमान में परियोजनाओं के अंतर्गत अधिगृहित परिसंपत्तियों को विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों में ही दिखाया गया है। वर्ष 2014-15 से इसे अलग से दर्शाया जाएगा।

अनुसूची 2: चिन्हित/वृत्ति विधियाँ

विवरण	अ.जा. /अजजा/ पि. छात्रवृत्ति	गृह निर्माण अग्रिम निधि	डॉ. आभा मिश्रा	ईएम निधि	राजीव गाँधी नेशनल फेलोशिप निधि	आरसीए	डॉ. राम चन्द्र जैव-प्रौद्योगिकी	एसएपी समाजशास्त्र	एससी
अ. अथ शेष	1,013,014	1,174,121	239,934	14,935,612	21,613,257	40,065,007	369,498	1,136,621	234,489
ब. वर्ष में जुड़ा			499,028	26,298,353			417,620		
स. निधि निवेश से आय									
द. निधि निवेश से प्रोद्भूत ब्याज									
ई. अग्रिम से प्रोद्भूत ब्याज									
एफ. बैंक बचत खाते एफडीआर से ब्याज	45,373	10,560	7,845	502,616	851,654	1,479,768	8,876	45,162	9,473
जी. अन्य जोड़े	2,500	11,280	-	49,819	120,833	37,875	-		
ख. निधियों के उद्देश्यों में उनका उपयोग/व्यय	1,060,887	1,195,961	746,807	41,786,400	22,585,744	41,582,650	795,994	1,181,783	243,962
1) राजस्व व्यय									
2) पूंजीगत व्यय	17,150		543,987	13,005,250	3,491,084	11,897,992	499,547	1,039,697	
3) निवेश/एफडीआर									
योग (ख)	17,150	-	543,987	13,005,250	3,491,084	11,897,992	499,547	1,039,697	-
	1,043,737	1,195,961	202,820	28,781,150	19,094,660	29,684,658	296,447	142,086	243,962
वर्ष के अन्त में इति शेष(क-ख)									
	1,043,737	295,961	202,820	24,281,150	19,094,660	29,684,658	296,447	142,086	243,962
प्रतिनिधित्व		900,000		4,500,000					
नकद एवं बैंक बैलेंस									
निवेश/एफडीआर									
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं									
अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं	1,043,737	1,195,961	202,820	28,781,150	19,094,660	29,684,658	296,447	142,088	243,962
मार्च के वेतन से वसूली जाने वाली राशि	1,013,014	1,174,121	239,934	14,935,612	21,613,257	40,065,007	369,498	1,136,621	234,489

जे. आर. पुरुष छात्रावास	कम्प्यूटर सेन्टर	सीएसएसआ ईपी	डॉ मनीष कुमार	जे.आर. महिला छात्रावास	डॉ. आनन्द प्रकाश डीबीटी	डॉ. नवीन अरोड़ा	डॉ. आनन्द प्रकाश यूजीसी	जे आर एफ फेलोशिप	आईसीएसएस आर (प्रो. नरेन्द्र कुमार)	मीडिया सेन्टर	डॉ. नरेन्द्र कुमार (पर्यावरण विज्ञान विभाग)
1,082,917	1,010,039	823,408	341,055	1,138,485	340,965	202,667	571,037	7,388,923	1,289,668	9,005,862	424,527
-		267,860	-		506,000	292,000	-	-	1,650,000	-	-
52,486	47,025	25,852	7,189	50,603	27,263	3,925	31,555	233,223	45,650	362,613	10,381
		-	42,636		-	-	20,651				
1,135,403	1,057,064	1,117,120	390,880	1,189,088	874,228	498,592	623,243	7,622,146	2,985,318	9,368,475	434,908
	1,057,064	721,957	390,880		222,000	487,340	255,629	7,514,090	2,356,875	1,736,071	383,554
1,135,403				1,189,088	-	-	-		-		
1,135,403	1,057,064	721,957	390,880	1,189,088	222,000	487,340	255,629	7,514,090	2,356,875	1,736,071	383,554
-	-	395,163	-	-	652,228	11,252	367,614	108,056	628,443	7,632,404	51,354
-	-	395,163	-	-	652,228	11,252	367,614	108,056	628,443	7,632,404	51,354
-	-	395,163	-	-	652,228	11,252	367,614	108,056	628,443	7,632,404	51,354
1,082,917	1,010,039	823,408	341,055	1,138,485	340,965	202,667	571,037	7,388,923	1,289,668	9,005,862	424,527

पेंशन निधि	स्टाट्र अप अनुदान	प्रो. नरेन्द्र कुमार यूजीसी एमआरपी	डॉ. आनन्द प्रकाश डीएसटी	डॉ. गौरव कैथवाज	डॉ. राम नरेश भार्गव	डॉ. सुदिप्ता साहा	योग
8,042,959	2,762,896	424,407	292,363				115,923,731
-	540,000	-	-	2,655,000	2,455,000	746,800	36,327,661
							-
							-
							-
325,726	95,392	17,158	12,277	41,533	38,310	11,559	4,401,047
55,712	5,005						346,311
8,424,397	3,403,293	441,565	304,640	2,696,533	2,493,310	758,359	156,998,750
	1,681,072	-	231,200	10,101	79,884	60,587	47,683,011
	-		-				2,324,491
							-
-,	1,681,072	-	231,200	10,101	79,884	60,587	50,007,502
8,424,397	1,722,221	441,565	73,440	2,686,432	2,413,426	697,772	106,991,248
8,424,397	1,722,221	441,565	73,440	2,686,432	2,413,426	697,772	101,591,248
							5,400,000
							-
							-
8,424,397	1,722,221	441,565	73,440	2,686,432	2,413,426	697,772	106,991,248
8,042,959	2,762,896	424,407	292,363	-	-	-	115,923,731

अनुसूची 3: वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान

क. वर्तमान देनदारियां		2012-13	2013-14 में जोड़ा गया	31-03-2014 को
अनसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ		7,400.00		7,400.00
छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान-गैर योजना		48,307.00		48,307.00
बयाना राशि जमा		1,388,960.00		1,388,960.00
समूह बीमा योजना/जीएसएलआईएस		152,713.00	(600.00)	152,113.00
रोकी गई धनराशि-योजनागत		5,168,296.00	4,577,540.00	9,745,836.00
सामान्य भविष्य निधि की देनदारी		17,380,383.00		17,380,383.00
अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी		2,987,041.00		2,987,041.00
भविष्य निधि देनदारी		26,876,679.00		30,188,771.00
नई पेंशन योजना देनदारी		6,749,060.19		10,724,127.19
				-
शिक्षा				8,591,230.00
नवीन पाठ्यक्रम				3,528,767.00
चिकित्सा अग्रिम		21,275.00		21,275.00
राज्य सरकार को देय धनराशि		2,305,065.00		2,305,065.00
जमानत जमा		687,646.00	227,505.00	915,151.00
अवधान राशि जमा		475,305.00		475,305.00
यथानुपात पेंशन		311,388.00		311,388.00
सीईए- वसूली-गैर योजना		208,000.00		208,000.00
अनुरक्षण भत्ता		5,400.00		5,400.00
कर्मचारियों के वेतन/अग्रिम से वसूली		1,616,036.00		1,616,036.00
भारतीय जीवन बीमा निगम		22,000.00		22,000.00
विविध पावतियां (देनदारी)		2,430,000.00		2,430,000.00
प्रतिधारण राशि			2,871,897.00	2,871,897.00
दंड			950,427.00	950,427.00
सी.वी.रमन अन्तर्राष्ट्रीय फेलोशिप			4,473.00	4,473.00
दान			68,568.00	68,568.00
योग (क)		68,840,954.19		96,947,920.19

ख. प्रावधान		-		-
फार टीडीएस हेतु		15,875.00		15,875.00
केन्द्रीय सुविधा यूसिक देय (योजना)		16,290.00		16,290.00
अन्य (फर्नीचर एवं वाहन) देय		431,025.00		431,025.00
अन्य संस्थानों को प्रेषण		79,263.00		79,263.00
योग		542,453.00		542,453.00
15. प्रावधान गैर योजना		-		-
कुलपति कार्यालय वेतन		268,787.00	(41,653.00)	227,134.00
वेतन गैर-शैक्षणिक कर्मचारी		2,264,915.00	710,951.00	2,975,866.00
मजदूरी		115,100.00	(115,100.00)	-
चिकित्सा व्यय		24,000.00	(24,000.00)	-
पेंशन		-	4,137.00	4,137.00
परिवार पेंशन		-	13,361.00	13,361.00
हाउस-कीपिंग		8,157.00	(8,157.00)	-
उपकरण, डॉ. आनन्द प्रकाश		62,782.00		62,782.00
परीक्षक का पारीश्रमिक		129,345.00		129,345.00
वेतन शैक्षिक		3,164,472.00	446,795.00	3,611,267.00
अन्य		77,541.00		77,541.00
योग (ख)		6,115,099.00		7,101,433.00
योग (क+ख)		75,498,506.19		104,591,806.19
				-
प्रावधान- बारहवीं योजना				-
वेतन-शिक्षण		4,811,450.00	(37,714.00)	4,773,736.00
वेतन-गैर शिक्षण		145,434.00	18,926.00	164,360.00
वेतन-सीएसएसईआईपी शिक्षण		251,455.00	27,907.00	279,362.00
वेतन-सीएसएसईआईपी गैर-शिक्षण		121,463.00	14,647.00	136,110.00
हाउस कीपिंग भुगतान		702,418.00	(702,418.00)	
विद्युत व्यय		716,441.00	(716,441.00)	
योग (ग)		6,748,661.00		5,353,568.00
योग (क+ख +ग)		82,247,167.19	(8,291,051.00)	109,945,374.19

अनुसूची 4- स्थायी परिसम्पत्तियां

क्रम सं.	विवरण	कुल ब्लॉक			कटौती/ टीआरएफ डब्ल्यू आई पी	वर्ष की संपत्तियों में लागता/ मूल्यांकन	मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक		
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जुड़ा				वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जुड़ी	वर्ष के अंत तक योग	वर्ष के अंत तक योग	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के दिन की स्थिति	31.03.2014 को समाप्त पूर्व वर्ष के दिन की स्थिति	
			पहले	बाद 30-09-2013	योग								-
क. स्थायी परिसम्पत्तियां													
	1. भूमि												
	a) फ्री होल्ड												
	b) लीज होल्ड					146,553,297.00						146,553,297.00	146,553,297.00
	2. भवन												
	a) फ्री होल्ड पर												
	b) लीज होल्ड पर												
	i. भवन एवं वस्तुविद्या कार्य	10.00	13,205,491.28			13,205,491.28	8,850,088.73	1,320,549.13		10,170,637.86	11,884,942.15	13,205,491.28	
	ii. प्रशासनिक कार्य	10.00	35,512,255.24			35,512,255.24	7,402,977.69	3,551,225.52		10,954,203.21	31,961,029.72	35,512,255.24	
	iii. महिला छात्रावास	5.00	38,593,496.51		1,168,669.00	39,762,165.51	12,981,843.50	1,958,891.55		14,940,735.05	37,803,273.96	38,593,496.51	
	iv. बाउन्ड्री वॉल	5.00	1,031,477.44			1,031,477.44	222,707.56	51,573.87		274,281.43	979,903.57	1,031,477.44	
	v. साइट/परिसर विकास	5.00	14,597,619.98			14,597,619.98	8,116,342.03	729,881.00		8,846,223.03	13,867,738.98	14,597,619.98	
	vi. मास्टर प्लान हेतु एनबीसीसी का परामर्श शुल्क	5.00	1,362,689.72			1,362,689.72	913,249.73	68,134.49		981,384.22	1,294,555.23	1,362,689.72	
	vii. उ.प्र.रा.नि.नि. को परामर्श शुल्क	5.00	314,097.23			314,097.23	210,502.77	15,704.86		226,207.63	298,392.37	314,097.23	
	viii. अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ एवं अतिथि गृह भवन का निर्माण	5.00	11,516,110.83			11,516,110.83	6,408,050.17	575,805.54		6,983,855.71	10,940,305.29	11,516,110.83	
	ix. कुलपति ब्लॉक की साज-सज्जा	5.00	50,589.80			50,589.80	33,904.20	2,529.49		36,433.69	48,060.31	50,589.80	
	x. छात्रावास/अतिथि गृह हेतु अवसंरचना सुविधायें।	5.00	1,021,844.08			1,021,844.08	310,206.92	51,092.20		361,299.12	970,751.88	1,021,844.08	
	xi. परिषद हॉल की साज-सज्जा	5.00	1,359,957.47			1,359,957.47	498,179.53	67,997.87		566,177.40	1,291,959.60	1,359,957.47	
	xii. प्रत्येक 272 की क्षमता वाले दो पुरुष छात्रावास	5.00	132,414,193.63		2,699,462.00	2,699,462.00	135,113,655.63	7,585,806.38	6,688,196.23		14,274,002.61	128,425,459.40	132,414,193.63

xiii. केन्द्रीय पुस्तकालय-डब्लूआईपी		72,457,767.50				72,457,767.50		4,113,147.50		4,113,147.50			72,457,767.50
3. प्रयोगशाला उपकरण-यूएसआईसी	15.00	24,122,787.05				24,122,787.05		2,788,938.96	361,841.81		3,150,780.77	23,760,945.24	24,122,787.05
4. वाहन	15.00	8,011,680.34				8,011,680.34		3,604,933.44	400,584.02		4,005,517.46	7,611,096.32	8,011,680.34
5. फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10.00	3,794,204.45	2,193,073.00	9,388,115.00	11,581,188.00		15,375,392.45	1,048,693.55	1,068,133.50		2,116,827.05	14,307,258.96	3,794,204.45
6. कार्यालय उपकरण	15.00	1,075,090.40					1,075,090.40	4,898,829.60	161,263.56		5,060,093.16	913,826.84	1,075,090.40
4. ओवर हेड टैंक 1000 कि. ली / नलकूप		43,518,860.00				43,518,860.00							43,518,860.00
8. विद्युत संस्थापन (सब स्टेशन)	10.00	1,607,099.24					1,607,099.24	7,950,362.76	160,709.92		8,111,072.68	1,446,389.32	1,607,099.24
9. पुस्तक एवं पत्रिकायें	60.00	15,703,727.99					15,703,727.99	16,805,511.02	9,422,236.79		26,227,747.81	6,281,491.20	15,703,727.99
10. नलकूप एवं जलापूर्ति	15.00	159,345.02					159,345.02	1,175,955.68	23,901.75		1,199,857.43	135,443.27	159,345.02
11. कार्यालय कम्प्यूटरीकरण	60.00	9,639,216.49	1,293,643.00		1,293,643.00		10,932,859.49	6,624,196.51	6,559,715.69		13,183,912.20	4,373,143.80	9,639,216.49
12. फर्नीचर एवं अन्य पूंजी मद	10.00	6,819,754.03					6,819,754.03	7,602,774.97	681,975.40		8,284,750.37	6,137,778.63	6,819,754.03
13. ईपीबीएबीएक्स	15.00	43,538.98					43,538.98	321,310.02	6,530.85		327,840.87	37,008.13	43,538.98
14. उपकरण	15.00	27,785,039.32	4,732,581.91	26,462,115.00	31,194,696.91		58,979,736.23	26,953,627.34	8,846,960.43		35,800,587.77	50,132,775.80	27,785,039.32
15. जैव विज्ञान/प्रौद्योगिक भवन चरण-1 का निर्माण	5.00	55,257,301.95				55,257,301.95		2,908,279.05		2,908,279.05			55,257,301.95
16. पुस्तकालय उपकरण	10.00	97,721.83					97,721.83	168,784.17	9,772.18		178,556.35	87,949.65	97,721.83
17. विभागीय उपकरण	10.00	10,798,195.59					10,798,195.59	2,567,704.41	1,079,819.56		3,647,523.97	9,718,376.03	10,798,195.59
18. वर्चुअल क्लास रूम का निर्माण	15.00	470,015.87	83,687.00		83,687.00		553,702.87	233,271.73	83,055.43		316,327.16	470,647.44	470,015.87
19. पर्यावरण विज्ञान विद्यापीठ भवन की साज सज्जा	5.00	3,140,740.61					3,140,740.61	421,553.39	157,037.03		578,590.42	2,983,703.58	3,140,740.61
20. डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थानांतरण		14,751,486.75				14,751,486.75		378,243.25		378,243.25			14,751,486.75
21. विधि अध्ययन विद्यापीठ भवन का निर्माण		26,190,188.70				26,190,188.70		671,543.30		671,543.30			26,190,188.70
22. पोषण गृह का विस्तार	5.00	3,416,775.38				131,379.00	3,285,396.38	87,609.63	170,838.77		258,448.40	3,114,557.61	3,416,775.38
23. स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण		18,395,325.00				18,395,325.00		471,675.00		471,675.00			18,395,325.00
योग (क)		744,788,982.70	8,302,984.91	39,718,361.00	48,021,345.91	230,702,308.90	562,108,019.71	145,330,804.49	44,275,958.46	8,542,888.10	181,063,874.85	517,832,061.25	744,788,982.70

ख. चालू पूंजी कार्य

निर्माण क्रिया कलापों के लिए के.लो.निर्माण विभाग को अग्रिम जमा कार्य के रूप में भुगतान												103,437,635.00	73,882,741.00
1 बाह्य सेवाओं, सड़क, जल निकासी/फुटपाथ का निर्माण	73,882,741.00	19,350,290.00	9,704,602.00	290,548,92.00		102,937,633.00							83,687.00
2. वर्चुअल क्लास रूम का निर्माण	83,687.00			-	83,687.00							1,267,661.00	1,267,661.00
3. केन्द्रीय सुविधा का निर्माण/सृजन	1,267,661.00					1,267,661.00						260,398,737.00	94,493,908.00
4. केन्द्रीय पुस्तकालय का निर्माण	94,493,908.00	16,853,590.00	149,051,239.50	165,904,829.50		260,398,737.00							
5. 1200 क्षमता वाले प्रेक्षागृह का निर्माण	137,220,722.00	59,626,438.00	62,126,427.00	121,752,865.00	22,500,000.00	236,473,587.00						236,973,587.00	137,220,722.00
15. जैव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी भवन चरण-1 का निर्माण			55,257,301.95	55,257,301.95		55,257,301.95						55,257,301.95	
20. डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थानांतरण			14,751,486.75	14,751,486.75		14,751,486.75						14,751,486.75	
21. विधि अध्ययन विद्यापीठ भवन का निर्माण		319,400.00	32,382,333.70	32,701,733.70		32,701,733.70						32,701,733.00	
23. स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण		1,356,000.00	18,395,325.00	19,751,325.00		19,751,325.00						19,751,325.00	
6. ओवर हेड टैंक 1000 किलो/नलकूप			43,518,860.00	43,518,860.00		43,518,860.00						43,518,860.00	
	योग (ख)	306,948,719.00	97,505,718.00	385,187,575.90	482,693,293.90	22,583,687.00	767,058,325.90	-	-	-	-	768,058,325.90	306,948,719.00
	योग (क-ख)	1,051,737,701.76	105,808,702.91	424,905,936.90	530,714,639.81	253,285,995.90	132,9166,345.61	145,330,804.49	44,275,958.46	8,542,888.10	181,063,874.85	1,285,890,387.15	1,051,737,701.70

अनुसूची 5: वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

	विवरण	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
क	वर्तमान परिसम्पत्तियां		
1	इन्वेंटरीज-स्टेशनरी सफाई सामग्री, भवन सामग्री, विद्युत सामग्री, प्रयोगशाला रसायन एवं स्पेयर्स, तथा जलापूर्ति सामग्री		
2	रोकड़ एव बैंक जमा शेष :		
अ	रोकड़ शेष	51,191.00	250,271.00
ब	अनुसूचित बैंको के पास बैंक जमा शेष		
	—बचत खातों में (परिशिष्ट-क)	781,789,653.66	380,879,328.47
	—चालू खातों में		
	—जमा खातों में		
	योग (क)	781,840,844.66	381,129,599.47

अनुसूची 5: वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

	2012-13	2013-14 में जोडा गया	31-03-2014 को
नकद अथवा वस्तु या उसका मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य धनराशियां			
पूंजी लेखा घर	209,714,083.00		209,714,083.00
जीआईएस	-		-
अन्य	420,000.00		420,000.00
प्राप्य दावे: उच्च न्यायालय में जमा	408,801.00		408,801.00
अतिरिक्त भूमि हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत भुगतान	10,000,000.00		10,000,000.00
विकास अनुदान (11वीं योजना)-योजनागत	1,030,220.00		1,030,220.00
वाहन अग्रिम	2,370,146.00	(83,070.00)	2,287,076.00
त्यौहार अग्रिम	81,600.00	(10,125.00)	71,475.00
उ.प्र. जल निगम को अग्रिम (योजना)	500,000.00	(500,000.00)	
उ.प्र. रा. नि. निगम को अग्रिम (अग्रिम)	500,000.00	(500,000.00)	
कर्मचारियों को अग्रिम	1,957,257.00	1,376,109.00	3,333,366.00
यात्रा भत्ता अग्रिम	46,702.00	35,042.00	81,744.00
एलटीसी अग्रिम	3,798,376.00	5,906.00	3,804,282.00
साईकल अग्रिम	593,484.00	(4,500.00)	588,984.00
व्यापार कर	6,722.00	(6,722.00)	
नई पेंशन योजना	9,814,310.19		9,814,310.19.00
भविष्य निधि अग्रिम वसूली	2,600.00		2,600.00
	-		-
भवन निर्माण अग्रिम-(योजना/गैर-योजना)	63,841.00	(375.00)	63,466.00
भवन अनुरक्षण (योजना)	11,280.00		11,280.00
कम्प्यूटर अग्रिम	1,332,773.00	(237,064.00)	1,095,709.00
आरएलसी में जमा (गैर योजना)	42,410.00		42,410.00
योग (ब)	242,694,605.19	75,201.00	242,769,806.19

संलग्नक- (क)

बैंक खाता नाम

धनराशि रूपये में

बचत बैंक खाता	2013-14	2012-2013
केनरा बैंक, गैर योजना खाता-60	90,518,584.65	42,154,658.64
केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश डीएसटी (2922)	73,440.00	292,363.00
केनरा बैंक (डॉ. आभा मिश्रा जैव प्रौद्योगिकी परियोजना) 2783	202,820.00	239,934.00
केनरा बैंक, योजना खाता संख्या-(779)	124,988,777.57	403,017,906.57
केनरा बैंक, अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र -2167	243,962.00	234,489.00
केनरा बैंक बाबू जग पुरुष छात्रावास(2599)	-	1,082,917.00
केनरा बैंक बाबू जग महिला छात्रावास(2733)		1,138,485.00
केनरा बैंक कम्प्यूटर केन्द्र(2622)		1,010,039.00
केनरा बैंक सीएसएसईआईपी (2641)	395,163.00	823,408.00
केनरा बैंक डेब्ट डिपॉजिट (खाता संख्या-0190)	5,688,771.18	2,376,678.93
केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश डीबीटी परियोजना (2767)	652,228.00	340,965.00
केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश यूजीसी एमआरपी परियोजना (2921)	367,614.00	571,037.00
केनरा बैंक, डॉ. नवीन कुमार अरोड़ा यूजीसी एमआरपी परियोजना (2840)	11,252.00	202,667.00
केनरा बैंक ईएमएफ (191)	24,281,150.03	10,435,612.03
केनरा बैंक (एचबीए रिर्वॉल्विंग फंड 0279)	295,961.00	274,121.00
केनरा बैंक, प्रो. नरेन्द्र कुमार, आईसीएसएसआर परियोजना (3086)	628,443.00	1,289,668.00
केनरा बैंक जेआरएफ (2904)	108,056.00	7,388,923.00
केनरा बैंक, डॉ. मनीष कुमार वर्मा यूजीसी एमआरपी परियोजना (2642)	-	341,055.00
केनरा बैंक मीडिया सेन्टर (4045)	7,632,404.00	9,005,862.00
केनरा बैंक नई पेंशन योजना (555)	10,224,127.19	6,249,060.19
केनरा बैंक पेंशन निधि खाता संख्या- (4047)	8,424,397.00	8,042,959.00
केनरा बैंक 12वीं योजना (3895)	35,747,822.45	217,467,618.30
केनरा बैंक, प्रो. नरेन्द्र कुमार, पॉलिटिकल साइंस यूजीसी एमआरपी परियोजना (4064)	441,565.00	424,407.00
केनरा बैंक प्रो राम चन्द्र (2817)	296,447.00	369,498.00

केनरा बैंक आरसीए (2086)	29,684,658.00	40,065,007.00
केनरा बैंक आरजीएनएफ (2600)	19,094,660.00	21,613,257.00
केनरा बैंक (एसएपी समाजशास्त्र 2841)	142,086.40	1,136,621.00
केनरा बैंक एससी/एसटी छात्रवृत्ति (0081)	1,043,737.00	1,013,014.00
केनरा बैंक स्टार्टअप ग्रान्ट खाता संख्या- (4063)	1,722,221.00	2,762,896.00
केनरा बैंक, यूजीसी एमआरपी परियोजना डॉ. नरेन्द्र कुमार, डीईएस (4046)	51,354.00	424,527.00
स्थापना-2013 (5047)	-	
शिक्षा (5047)	8,591,230.00	
डॉ. गौरव कैथवाज (5292)	2,686,432.00	
डॉ. राम नरेश भार्गव (5293)	2,413,426.00	
डॉ. सुदिप्ता साहा (5294)	697,772.00	
वित्त अधिकारी, बी.बी.ए.यू., लखनऊ (नवीन पाठ्यक्रम-5295)	3,528,767.00	
कुल योग	380,879,328.47	781,789,653.66

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची-6 अनुदान/आर्थिक सहायता

धनराशि रूपये में

विवरण	योजना			योग योजना	गैर योजना	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	भारत सरकार	यूजीसी			यूजीसी	योग	योग
		योजना	12वीं योजना				
शेष अग्रेनीत							
जोड़े: वर्ष की प्राप्तियां		1,505,408.00	10,005,000.00	101,555,408.00	216,122,000.00	317,677,408.00	621,665,866.00
योग				101,555,408.00	216,122,000.00	317,677,408.00	621,665,866.00
घटायें: यूजीसी की वापसी					-	-	
शेष				101,555,408.00	216,122,000.00	317,677,408.00	621,665,866.00
घटायें: पूंजी व्यय (क) हेतु प्रयोग						-	
(शिक्षा विद्यापीठ के निधि का स्थानान्तरण)		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	
शेष				51,555,408.00	216,122,000.00	267,677,408.00	621,665,866.00
घटायें: राजस्व व्यय (ख) हेतु प्रयोग						-	
शेष अग्रेनीत (ग)				51,555,408.00	216,122,000.00	267,677,408.00	621,665,866.00

अनुसूची-7: शैक्षिक प्राप्तियां

धनराशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क. विद्यार्थियों से शुल्क		
अ) शैक्षिक	7,279,006.71	4,050,884.00
1. प्रवेश शुल्क		
2. पंजीकरण शुल्क		
अ. ट्यूशन शुल्क		
ब. पुस्तकालय शुल्क	-	
स. अन्य		
ब) परीक्षा		
अ. वार्षिक परीक्षा शुल्क		
ब. अंक पत्र शुल्क		
स. अन्य पंजीकरण शुल्क, ओवर हेड प्रभार		
स) अन्य शुल्क	437,479.00	3,476,168.00
अ. चिकित्सा शुल्क		
ब. दीक्षान्त शुल्क		
स. अन्य विविध शुल्क		
द) छात्रावास शुल्क		
अ) प्रवेश फार्म/प्रोस्पेक्टस की बिक्री		
स) प्रश्न पत्रों की बिक्री		
योग	7,716,485.71	7,527,052.00

अनुसूची 8: आय एवं निवेश

धनराशि रूपये में

विवरण	चिन्हित/वृत्ति निधियां		योजना/गैर योजना	
	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
अ. सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ब. ऋण पत्र एवं बंध पत्र पर				
2. अनुसूचित बैंको में सावधि जमा पर				
3. (एचबीए एवं एमसीए) (प्रोद्भूत) अग्रिम पर			45,730.00	45,126.00
4. अनुसूचित बैंको के बचत खातों में	4,401,047.00	3,075,306.00	21,132,560.00	17,152,599.00
योग		3,075,306.00	21,178,290.00	17,197,725.00
संबंधित चिन्हित/वृत्ति निधि को स्थानांतरित				
अवशेष	शून्य	शून्य		

अनुसूची 9- अन्य आय

धनराशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1)	आवास से लाइसेन्स शुल्क	373,213.00	388,693.00
2)	अतिथि गृह से किराया	37,520.00	13,500.00
3)	दुकान, आवास डाकघर, बैंक इत्यादि से किराया	-	
4)	छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	569,556.00
5)	प्रायोजित योजनाओं/परामर्श परियोजनाओं से आय	1,120,484.00	
6)	परिवहन के प्रयोग हेतु प्रभार	-	
7)	जल एवं विद्युत प्रभार	712,640.00	1,907,333.00
8)	पुस्तक एवं पत्रिकाएं	-	6,718.00
9)	वसूली	146,954.00	
10)	विविध आय (अप्रयोज्य भंडार/रद्दी कागज, निविदा पत्र, दण्ड एवं दण्ड प्रभार, अन्य विविध आय)	9,844,031.06	705,808.00
	योग	12,234,842.06	3,591,608.00

अनुसूची 10- स्थापना व्यय

धनराशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष				पूर्व वर्ष			
	12वीं योजना	योजनागत	गैर योजनागत	योग	12वीं योजना	योजनागत	गैर योजनागत	योग
a वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	66,798,942.00	-	85,272,057.00	152,070,999.00	37,761,265.00	25,473,163.00	76,240,908.00	139,475,336.00
b भविष्य निधि अंशदान		-	454,983.00	454,983.00		146,890.00	249,200.00	396,090.00
c अन्य निधियों को अंशदान (नई पेंशन योजना)	4,027,648.00	-	2,001,506.00	6,029,154.00	1,878,903.00	1,797,020.00	7,308,727.00	10,984,650.00
d बोनस	34,540.00		246,842.00	281,382.00			264,400.00	264,400.00
e छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)			3,267,844.00	3,267,844.00				-
f चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति			510,000.00	510,000.00			1,655,112.00	1,655,112.00
g सीजीएचएस योजना में अंशदान				-				-
h द्यूशन शुल्क प्रतिपूर्ति			-	-			1,478,869.00	1,478,869.00
i कर्मचारी कल्याण व्यय				-				-
j कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण)	221,512.00		2,406,067.00	2,627,579.00			2,907,113.00	2,907,113.00
k शुल्क एवं मानदेय	2,012,937.00	-	338,048.00	2,350,985.00	55,000.00	221,000.00	2,000.00	278,000.00
l छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	117,352.00		247,497.00	364,849.00			158,713.00	158,713.00
m अन्य -परिवार पेंशन			441,543.00	441,543.00			339,071.00	339,071.00
कुल योग	73,212,931.00	-	95,186,387.00	168,399,318.00	39,695,168.00	27,638,073.00	90,604,113.00	157,937,354.00

अनुसूची 11- शैक्षणिक व्यय

धनराशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष				पूर्व वर्ष			
	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग
1 प्रयोगशाला संचालन व्यय	2,139,433.00		4,401,536.00	6,540,969.00	4,437,078.00		406,015.00	4,843,093.00
2 क्षेत्रकार्य / सम्मेलनों में भागीदारी	3,693,426.00		6,463,701.00	10,157,127.00		30,281.00		30,281.00
3 शिक्षण सहायता				-		34,497.00		34,497.00
4 सेमिनार / कार्यशाला				-	1,318,731.00		937,478.00	2,256,209.00
5 एनकेएन वर्चुअल क्लासरूम			1,978.00	1,978.00			20,315.00	20,315.00
6 शोध क्रियाकलाप				-	6,370,421.00	1,787,849.00		8,158,270.00
7 परीक्षा / प्रवेश परीक्षा			3,926,868.00	3,926,868.00			2,653,595.00	2,653,595.00
8 विद्यार्थी कल्याण व्यय				-		1,453,210.00	14,700.00	1,467,910.00
9 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति / स्टाइपेन्ड				-		931,732.00		931,732.00
10 पत्रिकायें प्रकाशन	12,571,584.00			12,571,584.00			816,829.00	816,829.00
11 शैक्षणिक दौरा			20,541.00	20,541.00			40,943.00	40,943.00
12 पुस्तकालय व्यय			32,282.00	32,282.00			43,032.00	43,032.00
13 शैक्षिक क्रियाकलाप (विभिन्न विभाग)			959,858.00	959,858.00			1,198,946.00	1,198,946.00
14 खेल-कूद क्रियाकलाप	1,796,000.00		3,434,327.00	5,230,327.00		68,405.00	13,401.00	81,806.00
15 यूजीसी शोध फेलोशिप	10,601,184.00			10,601,184.00				
कुल योग	30,801,627.00	-	19,241,091.00	50,042,718.00	12,126,230.00	4,305,974.00	6,145,254.00	22,577,458.00

अनुसूची 12- प्रशासनिक व्यय

धनराशि रूपयें में

विवरण	वर्तमान वर्ष				पूर्व वर्ष				
	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग	
A									
	अवसंरचना								
	D			112,924.00	112,924.00			4,949.00	4,949.00
	कुलानुशासक कार्यालय								
	II)	2,750,644.00		9,141,083.00	11,891,727.00	2,212,578.00		7,712,847.00	9,925,425.00
	चिद्युत व्यय								
	III)			605,276.00	605,276.00			11,685.00	11,685.00
	प्लेसमेंट व्यय								
	IV)	2,288,301.00		7,751,282.00	10,039,583.00		117,143.00	1,772,445.00	1,889,588.00
	सुरक्षा व्यय								
	V)			1,541,818.00	1,541,818.00	184,946.00		687,796.00	872,742.00
	वाहन चलन व्यय								
	VI)			57,489.00	57,489.00			71,573.00	71,573.00
	बीमा								
	VII)			14,849.00	14,849.00			10,775.00	10,775.00
	सूचना एवं मार्गनिर्देश ब्यूरो विविध								
B	संचार								
	D)			109,173.00	109,173.00			79,154.00	79,154.00
	डाक एवं तार व्यय								
	II)			743,946.00	743,946.00	12,411.00		591,741.00	604,152.00
	टेलीफोन एवं फैक्स								
	III)			69,652.00	69,652.00			45,787.00	45,787.00
	इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार								
C	कर्मचारी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला			500.00	500.00			33,708.00	33,708.00
D	डीएसडब्लू कार्यालय			5,547.00	5,547.00			15,553.00	15,553.00
E	विज्ञापन एवं प्रचार	12,465,690.00		2,859,305.00	15,324,995.00	23,447.00		1,754,085.00	1,777,532.00
F	विधिक व्यय			581,850.00	581,850.00			783,642.00	783,642.00
G	अन्य								
	D)	719,645.00		2,959,257.00	3,678,902.00	170,422.00		295,413.00	465,835.00
	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी (उपभोग हेतु)								
	II)			22,487.00	22,487.00			28,645.00	28,645.00
	समाचार पत्र एवं पत्रिकायें								
	III)	401,010.00	40,000.00	1,068,944.00	1,509,954.00	45,312.00	3,300.00	593,852.00	642,464.00
	यात्रा एवं वाहन व्यय								
	IV)			20,149.00	20,149.00			112,275.00	112,275.00
	गुप्त एवं गोपनीय कार्य								

V)	परामर्श शुल्क							323,981.00	323,981.00
VI)	बैंक प्रभार	3,245.00	439.00	4,569.00	8,253.00			4,712.00	4,712.00
VII)	बैठक प्रभार			4,664,314.00	4,664,314.00			2,685,023.00	2,685,023.00
VIII)	सदस्यता प्रभार	100.00		834,338.70	834,438.70			148,692.00	148,692.00
IX)	एनएसडीएल शुल्क			18,610.00	18,610.00			32,730.00	32,730.00
X)	डिसर्टेशन कार्य			62,573.00	62,573.00			71,159.00	71,159.00
XI)	स्थानीय वाहन व्यय							670.00	670.00
XII)	यूएसआईसी			123,812.00	123,812.00			180,094.00	180,094.00
XIII)	लिवरीज							11,937.00	11,937.00
XIV)	कार्यालय आकस्मिक व्यय			827,267.00	827,267.00			643,476.00	643,476.00
XV)	वीआईपी अतिथियों का दौरा व्यय			108,900.00	108,900.00			86,234.00	86,234.00
XVI)	अन्य विविध, प्रशासनिक व्यय	1,071,863.00		4,568,165.00	5,640,028.00	60,126.00	2,168.00	408,945.00	471,239.00
XVII)	चुकता वैट			6,722.00				120,615.00	120,615.00
XVIII)	आय कर							31,513.00	31,513.00
सम्पूर्ण योग		19,700,498.00	40,439.00	38,884,801.70	58,619,016.70	2,709,242.00	122,611.00	19,355,706.00	22,187,559.00

अनुसूची 13- मरम्मत एवं अनुरक्षण

धनराशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष				पूर्व वर्ष			
	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	योग
1) गृह सज्जा	2,103,236.00		15,567,658.00	17,670,894.00	702,418.00		8,848,171.00	9,550,589.00
2) बागवानी एवं पशु गृह			843,196.00	843,196.00			152,827.00	152,827.00
3) भवन अनुरक्षण	828,623.00		3,277,891.00	4,106,514.00			779,925.00	779,925.00
4) विभाग/परिसर अनुरक्षण	130,279,092.00		3,558,019.00	133,837,111.00	105,154.00		708,976.00	814,130.00
5) कार्यालय उपकरण अनुरक्षण			631,965.00	631,965.00			451,551.00	451,551.00
6) कम्प्यूटर अनुरक्षण			588,152.00	588,152.00			294,823.00	294,823.00
7) वाहन अनुरक्षण				-				-
8) फर्नीचर एवं फिक्सर अनुरक्षण				-				-
9) प्रयोगशाला उपकरण अनुरक्षण				-				-
10) अतिथि गृह प्रभार	2,756,660.00		567,995.00	3,324,655.00	15,000.00		105,560.00	120,560.00
11) विविध (महिला छात्रावास)		8,028,144.00	75,676.00	8,103,820.00		107,125.00	49,195.00	156,320.00
12) विविध (पुरुष छात्रावास)	396,636.00		256,007.00	652,643.00			69,617.00	69,617.00
13) सफाई	179,824.00		2,773,602.00	2,953,426.00			1,072,235.00	1,072,235.00
कुल योग	136,544,071.00	8,028,144.00	28,140,161.00	172,712,376.00	822,572.00	107,125.00	12,532,880.00	13,462,577.00

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखा का भाग बनी अनुसूचियां

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	धनराशि	भुगतान	धनराशि
अथ शेष			
अ) रोकड़ नकद	51,191.00	व्यय	
ब) बैंक में जमा शेष	781,789,653.66	स्थापना	88,733,918.70
		प्रशासनिक	88,825,031.00
		स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय योजना	254,081,726.00
		स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय 12 वीं योजना	54,006,440.91
प्राप्त अनुदान	404,005,069.00		
		अन्य लेखों पर व्यय	410,618,235.66
शैक्षिक प्राप्तियाँ	28,785,546.77	सावधि जमा रसीद	10,600,262.00
		--	-
प्राप्त ब्याज	32,526,400.00		
रोकी गई धनराशि	4,897,512.00		
		इति शेष:-	
अन्य प्राप्तियाँ	35939841.31	अ) रोकड़ नकद	250,271.00
		ब) बैंक में जमा शेष	380879328.5
योग	1,287,995,213.74	योग	1,287,995,213.74

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
भविष्य निधि लेखा
31 मार्च, 2014 का तुलनपत्र

देनदारियां	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	वर्तमान वर्ष	वर्तमान वर्ष	परिसम्पत्तियां	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
समान्य भविष्य निधि					निवेश/एफडीआर	32,127,394.00	41,127,656.00
अथ शेष	28,348,263.00		32,830,011.00		31.03.14 को प्रोद्भूत ब्याज		
घटाये: मार्च हेतु.....					14 मार्च 2014 हेतु देय		
	28,348,263.00		32,830,011.00		समान्य भविष्य निधि		
जोड़े: अंशदान	6,908,842.00		6,967,393.00		अंशदायी भविष्य निधि		
घटाये : अग्रिम/निकासी	2,427,094.00	32,830,011.00	(5,731,300.00)	34,066,104.00	नकद रोकड़		
अंशदायी भविष्य निधि					केनरा बैंक खाता नं. 190	2,376,679.00	5,688,771.00
अथ शेष			(2,064,980.00)				
घटाये : मार्च हेतु.....							
जोड़े : अंशदान	92,427.00		742,500.00				
जोड़े : जमा ब्याज							
जोड़े : मार्च हेतु.....							
घटाये : अग्रिम/निकासी	2,157,407.00	(2,064,980.00)		(1,322,480.00)			
विश्वविद्यालय अंशदान							
अथ शेष			333,180.00				
घटाये : मार्च का अंशदान							
जोड़े : वर्ष का अंशदान	333,180.00						
जोड़े : जमा ब्याज							
जोड़े : मार्च..... का अंशदान							
घटाये : अग्रिम/निकासी		333,180.00		333,180.00			
बयान राशि/जमानत जमा		100,466.00		4,671,335.00			
ब्याज आरक्षित							
अथ शेष			3,305,396.00				
जोड़े: व्यय के सापेक्ष अधिक आय		3,305,396.00	5,762,892.00	9,068,288.00			
योग		34,504,073.00		46,816,427.00		34,504,073.00	46,816,427.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
भविष्य निधि लेखा
31.03.2014 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	आय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
ब्याज जमा			अर्जित ब्याज	3,303,076.00	5,763,735.00
समान्य भविष्य निधि लेखा					
अंशदायी भविष्य निधि लेखा					
विश्वविद्यालय अंशदान					
बैंक प्रभार	224.00	843.00	विविध आय	2,544.00	
व्यय के सापेक्ष अधिक आय	3,305,396.00	5,762,892.00	आय के सापेक्ष अतिरिक्त आय		-
योग	3,305,620.00	5,763,735.00	योग	3,305,620.00	5,763,735.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
भविष्य निधि लेखा
वित्तीय वर्ष 2014 हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष		भुगतान	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
अथ शेष					सामान्य भविष्य निधि अग्रिम	542,700.00		268,350.00	
केनरा बैंक खाता नं. 0190	2,376,679.00		3,848,263.00		सामान्य भविष्य निधि निकासी	5,696,334.00		2,793,378.00	
एफडीआर	24,500,000.00	26,876,679.00	24,500,000.00	28,348,263.00	अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम/निकासी			2,157,407.00	
					विश्वविद्यालय अंशदान निकासी		6,239,034.00		5,219,135.00
सामान्य भविष्य निधि अंशदान	6,967,393.00		6,908,842.00						
अंशदायी भविष्य निधि अंशदान	742,500.00		92,427.00		वर्ष के दौरान निवेश (एफडीआर)		9,000,262.00		7,627,394.00
विश्वविद्यालय अंशदान- अंशदायी भविष्य निधि		7,709,893.00	333,180.00	7,334,449.00					
					बैंक प्रभार		843.00		224.00
बयाना राशि/सुरक्षा जमा		4,570,869.00		100,466.00					
सा.भ.नि./अंशदायी भ.नि. अग्रिम वसूली		507,734.00		634,634.00					
					इति शेष:-				

प्राप्त ब्याज-बचत खाता	163,473.00		175,682.00		केनरा बैंक खाता नं. 0190	5,688,771.00		2,376,679.00	
प्राप्त ब्याज-सावधि जमा खाता	5,600,262.00	5,763,735.00	3,127,394.00	3,303,076.00	सावधि जमा रसीद	24,500,000.00	30,188,771.00	24,500,000.00	26,876,679.00
विविध आय				2,544.00					
निवेश नकदीकरण									
योग		45,428,910.00		39,723,432.00	योग		45,428,910.00		39,723,432.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नई पेंशन योजना लेखा
तुलनपत्र - 31 मार्च, 2014

देनदारियाँ	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	परिसम्पत्तियाँ	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
अथ शेष	3,627,800.19	6,749,060.19	निवेश/सावधि जमा रसीद	500,000.00	500,000.00
			बैंक में जमाशेष	6,249,060.19	10,224,127.19
जोड़े: अंशदान + विश्वविद्यालय अंशदान	2,945,587.00	3,647,317.00			
व्यय के सापेक्ष अधिक आय	175,673.00	327,750.00			
योग	6,749,060.19	10,724,127.19	योग	6,749,060.19	10,724,127.19

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नई पेंशन योजना लेखा
31-03-2014 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	आय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
अंशदाताओं के खाते में जमा किया गया ब्याज			निवेश से अर्जित व्यय	176,093.00	328,103.00
बैंक प्रभार	420.00	353.00			
व्यय के सापेक्ष अधिक व्यय	175,673.00	327,750.00	जोड़े: प्रोद्भूत ब्याज 31/03/		
			घटाये : प्रोद्भूत ब्याज 31/03/		
योग	176,093.00	328,103.00	योग	176,093.00	328,103.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नई पेंशन योजना लेखा
वित्तीय वर्ष 2013-14 का पावती एवं भुगतान लेखा

पावती	पूर्व वर्ष		वर्तमान वर्ष		भुगतान	पूर्व वर्ष		वर्तमान वर्ष	
अथ शेष	3,127,800.19		6,249,060.19						
ओपी सावधि जमा रसीद	500,000.00	3,627,800.19	500,000.00	6,749,060.19	निवेश				
नई पेंशन योजना लेखा									
स्वयं अंशदान	1,471,888.00		1,823,659.00						
विश्वविद्यालय अंशदान	1,473,699.00	2,945,587.00	1,823,658.00	3,647,317.00					
प्राप्त ब्याज					बैंक प्रभार		420.00		353.00
बचत बैंक खाता एवं सावधि जमा पर ब्याज		176,093.00		328,103.00	इति शेष	6,249,060.19		10,224,127.19	
					सावधि जमा रसीद	500,000.00	6,749,060.19	500,000.00	10,724,127.19
योग		6,749,480.19		10,724,480.19	योग		6,749,480.19		10,724,480.19

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
ई. टी.
वित्तीय वर्ष 2013-14 का तुलन पत्र

देनदारियां	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	परिसंपत्तियां	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
अथ शेष			गैर योजना खातों का स्थानान्तरण		6,721,584.06
जोड़े: अधिशेष		6,721,584.06	बैंक में अवशेष		-
योग		6,721,584.06	योग	.	6,721,584.06

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
ई. टी.

31-03-2014 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	आय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
			निवेश पर अर्जित ब्याज		233,781.00
व्यापार कर		324,391.00			
			विविध आय		6,812,194.06
व्यय के सापेक्ष अधिक आय		6,721,584.06			
योग	-	7,045,975.06	योग	-	7,045,975.06

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
ई. टी.
वित्तीय वर्ष 2013 हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अथ शेष			व्यापार कर	324,391.00	
केनरा बैंक खाता संख्या- 5047			12 वीं योजना खोते को स्थानांतरित	6,721,584.06	
प्राप्त ब्याज:					
प्राप्त ब्याज- ब्याज बचत खता	233,781.00				
प्राप्त ब्याज- सावधि जमा खाता			इति शेष	-	
			केनरा बैंक स्थापना 5047	-	
विविध आय	6,812,194.06				
योग	7,045,975.06	.	योग	7,045,975.06	.

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
शिक्षा
तुलन पत्र- 31 मार्च, 2014

देनदारियां	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	परिसंपत्तियां	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
निधि			एसबीबीटी भवन का निर्माण		40,000,000.00
अथ शेष			निवेश/सावधि जमा खाता		1,600,000.00
			बैंक में अवशेष		8,591,230.00
			स्टाफ को अग्रिम		24,408.00
जोड़े: अधिशेष		50,215,638.00			
योग		50,215,638.00	योग		50,215,638.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
शिक्षा

31 / 03 / 2014 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	आय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
			निवेशों पर अर्जित व्याज		583,621.00
बैंक प्रभार		17.00			
आकस्मिकता		114,606.00	सहायक –अनुदान		50,000,000.00
उपकरण		77,750.00			
अतिथि संकाय		107,000.00			
बैठकों पर व्यय		68,610.00			
व्यय के सापेक्ष अधिक आय		50,215,638.00			
योग	.	50,583,621.00	योग	.	50,583,621.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
शिक्षा
वित्तीय वर्ष 2014 हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अथ शेष			सावधि जमा रसीद	1,600,000.00	
केनरा बैंक खाता संख्या नं. 5155			स्टाफ को अग्रिम	24,408.00	
			एसबीबीटी भवन का निर्माण	40,000,000.00	
			आकस्मिता	114,606.00	
प्राप्त अनुदान:			उपकरण	77,750.00	
योजना अनुदान खाता			अतिथि संकाय	107,000.00	
सहायक अनुदान	50,000,000.00		बैंठकों पर व्यय	68,610.00	
प्राप्त ब्याज			बैंक प्रभार	17.00	
प्राप्त ब्याज-बचत खाता	583,621.00				
			इति शेष		
			केनरा बैंक खाता संख्या नं. 5155	8,591,230.00	
योग	50,583,621.00	.	योग	50,583,621.00	

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नवीन पाठ्यक्रम
तुलन पत्र 31-03-2014 तक

देनदारियां	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	परिसंपत्तियां	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
			स्टाफ को अग्रिम		119,427.00
अथ शेष	.		एसबीबीटी भवन का निर्माण	.	10,000,000.00
अधिशेष		13,648,194.00	बैंक में अवशेष	.	3,528,767.00
योग		13,648,194.00	योग	.	13,648,194.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नवीन पाठ्यक्रम
31 / 03 / 2014 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	आय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
स्टाफ को अग्रिम			निवेश पर अर्जित ब्याज		37,823.00
केमिकल-फूड माइक्रो एवं टॉक्सीकोलॉजी		410,087.00			
आकस्मिकता		219,195.00	शुल्क से आय		14,694,346.00
उपकरण		186,668.00			
फर्नीचर		113,400.00			
अतिथि संकाय सीएमसीए		36,000.00			
अतिथि संकाय, कम्युनिटी कॉलेज		9,000.00			
अतिथि संकाय, माइक्रो एवं टॉक्सीकोलॉजी		57,511.00			
अतिथि संकाय, एम-टेक		49,403.00			
केमिकल का क्रय		2,018.00			
बैंक प्रभार		693.00			
व्यय के सापेक्ष अधिक आय		13,648,194.00			
योग		14,732,169.00	योग		14,732,169.00

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नवीन पाठ्यक्रम
वित्तीय वर्ष 2014 हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष
अथ शेष				स्टाफ को अग्रिम	119,427.00		-
केनरा बैंक खता संख्या-5295	-			केमिकल-फूड माइक्रो एवं टॉक्सीकोलॉजी	410,087.00		-
		-		आकस्मिकता	219,195.00		-
				उपकरण	186,668.00		
प्राप्त अनुदान:				एसबीबीटी भवन का विस्तार	10,000,000.00		
योजना अनुदान खाता	-		-	फर्नीचर	113,400.00	-	
सहायक अनुदान	-	-	-	अतिथि संकाय सीएमसीए	36,000.00		
				अतिथि संकाय, कम्युनिटी कॉलेज	9,000.00	-	
प्राप्त ब्याज:		-		अतिथि संकाय, माइक्रो एवं टॉक्सीकोलॉजी	57,511.00		
प्राप्त ब्याज- बचत खाता	37,823.00		-	अतिथि संकाय, एम-टेक	49,403.00		
प्राप्त ब्याज- सावधि जमा खाता	-	37,823.00	-	केमिकल का क्रय	2,018.00		-
				बैंक प्रभार	693.00	11,203,402.00	-
				इति शेष:			
शुल्क से आय	14,694,346.00	14,694,346.00		केनरा बैंक खता संख्या-5295	3,528,767.00		
					-	3,528,767.00	
योग		14,732,169.00		योग		14,732,169.00	

अनुसूची 2-समग्र निधि

धनराशि रु. में

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष		
जोड़े:	प्रमाणन शुल्क एवं प्रभार		
जोड़े:	यूजीसी से बराबर का अंशदान		
जोड़े:	परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का भाग		
जोड़े:	निवेश पर ब्याज		
जोड़े:	प्रयोजित परियोजनाओं में निवेश निधि पर ब्याज		
जोड़े:	बचत बैंक खाता पर ब्याज		
जोड़े:	31.03..... को समग्र निधि के राशि के निवेश पर प्राप्त ब्याज परंतु देय नहीं		
जोड़े:			
	योग	””	””
घटायें:	राजस्व व्यय		
घटायें:	पूँजी व्यय		
	योग	””	””
	वर्ष के अंत में अवशेष		
	द्वारा प्रस्तुत		
	बैंक शेष		
	निवेश – आरबीआई बॉन्ड		
	निवेश– टीडीआरएस		
	प्रोद्भूत ब्याज		
	योग	””	””

तुलन पत्र के निर्मित हिस्से में चिन्हित/वृत्त निधियों की अनुसूची के 'वृत्त निधियों' के स्तंभ के आंकड़ों के सहायता हेतु उप अनुसूची का नमूना प्रारूप अनुसूची 3 अ

1. क्रम संख्या	2. वृत्ति का नाम	अथ शेष		वर्ष का जोड़		योग		9.वर्ष के दौरान वस्तु पर व्यय	इति शेष		योग (10+11)
		3.वृत्ति	4.संचित ब्याज	5.वृत्ति	6. ब्याज	7.वृत्ति	8.संचित ब्याज		10.वृत्ति	11.संचित ब्याज	

टिप्पणी:

1. तुलन पत्र के निर्मित हिस्से में चिन्हित/वृत्त निधियों की अनुसूची के "वृत्त निधियों" के स्तम्भ की पंक्ति सं. 3 एवं 4 का कुल योग अथ शेष के रूप में दर्शायी गयी हैं।
2. पंक्ति 9 का कुल योग सामान्यतया पंक्ति 8 के कुल योग से कम होना चाहिए जैसा कि ब्याज का प्रयोग वृत्तिक वस्तुओं के व्यय पर किया जाये।
3. सामान्यतः अनुसूची में डेबिट शेष नहीं होना चाहिए। यदि कदाचित, वृत्ति के निधियों में नामे शेष है, तुलन पत्र के परिसम्पत्तियों में नामे शेष 'प्राप्य राशियां' के रूप में दर्शाया गया है।

तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों के तहत योग (चालू प्रायोजित परियोजना की पावती) (कुल व्यय) मदों के सहायक उप अनुसूची

अनुसूची: 4.5 (ब): प्रायोजित परियोजना

1. क्रम संख्या	2. परियोजना का नाम	अथ शेष		5. वर्ष की प्राप्तियां/वसूलियां	6. योग	7. वर्ष के दौरान किया गया व्यय	इति शेष	
		3. क्रेडिट	4. डेबिट				8. क्रेडिट	9. डेबिट

टिप्पणी:

1. प्रत्येक एजेन्सी के उप योग सहित, परियोजना को एजेन्सी वार, सूचीबद्ध किया जा सकता है।
2. तुलन पत्र में देनदारियों पर उपरोक्त मद के तहत पंक्ति-8 में योग दर्शाया गया है।
3. प्राप्तियों के रूप में "वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम-व-अग्रिम तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों के तहत पंक्ति-9 में दर्शाया गया है।

अनुसूची 4.5 फ: यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अप्रयोज्य अनुदान

धनराशि रू. में

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अ. योजना अनुदान: भारत सरकार		
शेष अग्रणीत		
जोड़े: वर्ष की प्राप्तियां		
योग (अ)		
घटायें: वापसियां		
घटायें: राजस्व व्यय हेतु प्रयोग		
घटायें: पूंजी व्यय हेतु प्रयोग		
योग (ब)		
अप्रयोज्य अग्रणीत	योग(अ-ब)	
ब. यूजीसी अनुदान		
शेष अग्रणीत		
वर्ष की प्राप्तियां		
योग (स)		
घटायें: वापसियां		
घटायें: राजस्व व्यय हेतु प्रयोग		
घटायें: पूंजी व्यय हेतु प्रयोग		
योग (द)		
अप्रयोज्य अग्रणीत	योग(स-द)	
स. राज्य सरकार से अनुदान		
शेष अग्रणीत		
जोड़े: वर्ष की प्राप्तियां		
योग (ई)		
घटायें: राजस्व व्यय हेतु प्रयोग		
घटायें: पूंजी व्यय हेतु प्रयोग		
योग (फ)		
अप्रयोज्य अग्रणीत	योग (ई-फ)	
'कुल योग	योग (अ+ब+स)	

*नोट: पूंजीगत लेखा के अग्रिम सहित

अनुसूची 14- पूर्व अवधि की आय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
पूर्व अवधि की आय		
योग		

अनुसूची 15 अ: कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवा लाभ

अ.	उपदान	पेंशन	छुट्टी भुनाना	योग
अथ शेष जोड़े: सेवानिवृत्ति लाभों हेतु अन्य संगठनों से प्राप्त पूंजीगत मूल्य अंशदान				
योग	***	****	***	****
घटायें: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	***	****	***	****
31.03..... को उपलब्ध शेष.....	***	****	***	****
31.03.....को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार आवश्यक प्रावधान में किये गये प्रावधान.....	***	****	***	****
ब. नई पेंशन योजना में अंशदान				
स. सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति				
द. सेवा निवृत्ति पर गृहनगर की यात्रा				
ई. जमा से जुड़े बीमा भुगतान				

*कुल योग योग (अ+ब+स+द+ई)

*अनुसूची 15 के मद (ज) में दिये आंकड़े होंगे।

अनुसूची 19- पूर्व अवधि का व्यय

धनराशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना	योग
1. स्थापना व्यय	—	—	—	—	—	—
2. शैक्षिक व्यय	—	—	—	—	—	—
3. प्रशासनिक व्यय	—	—	—	—	—	—
4. मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	—	—	—	—	—	—
5. विविध	—	—	—	—	—	—
योग						

लेखा पर टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखा खातों का भाग बने
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ-साथ तुलन-पत्र और आय एवं व्यय खातों पर टिप्पणी

1. तुलना करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष के अंकों को वर्तमान वर्ष के साथ पुनः समूहीकृत किया गया है।
2. चिन्हित निधि से खरीदी गई स्थायी परिसम्पत्तियाँ, जिनके लिए कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है, के अलावा सभी स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत उनका मूल्यह्रास कम करके ही दर्शायी गई है।
3. स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित दरों पर डब्ल्यू. डी. बी. पद्धति से किया गया है। 30.9.2013 तक क्रय की गई/प्रयोग में लाई गई परिसम्पत्तियों पर पूर्ण वर्ष हेतु मूल्यह्रास की गणना की गई और 1.10.13 या उसके पश्चात् क्रय की गई परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास की गणना आधी दर पर की गई है।
4. नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय इलाहाबाद के अंकेक्षण प्रतिवेदन/सुझाव के अधार पर पूर्व वर्ष के वार्षिक लेखों के संबंध में आवश्यक संशोधन किया गया है।
5. वित्तीय वर्ष 2013-14 का वार्षिक लेखा बनाते समय लेखों पर महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद के पूर्व के वर्षों के वार्षिक लेखों के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण पत्रों के आधार पर किये गये प्रेक्षण/सुझाव/समाशोधन का सम्यक् ध्यान रखा गया है तथा यथावश्यक अंकों को पुनः समूहबद्ध किया गया है।

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखा पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1. हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के नियम 19(2) के साथ ही पठित बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के नियम 30 के अर्न्तगत बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा-परीक्षा किया है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय प्रबंधतंत्र का है। हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, इन वित्तीय विवरणों पर, अपनी राय व्यक्त करने तक ही है।
2. इस पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, इष्टतम लेखाकरण पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण शर्तों इत्यादि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियों को रखा गया है। कानून, नियम एवं विनियमों (प्रोपाइटी एण्ड रेगुलरिटी) एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई है, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों को अलग से निरीक्षण प्रतिवेदनों/नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है।
3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हमें अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनानी तथा निष्पादित करनी चाहिए जिससे इस बात का समुचित आश्वासन मिल जाये कि वित्तीय विवरणों में कोई बड़ा असत्य विवरण प्रस्तुत न हो सके। किसी लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच करना, धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण शामिल रहता है। इसके साथ ही, लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों का आंकलन करने और प्रबंधतंत्र द्वारा बनाये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल रहता है। हमें विश्वास है कि हमने अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार की है, जो हमें अपना विचार व्यक्त करने का समुचित आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम निम्नलिखित प्रतिवेदन करते हैं।

हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा करने के उद्देश्य हेतु आवश्यक सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण सिवाय उनके जिनका उल्लेख इस रिपोर्ट में है, हमने प्राप्त कर लिये हैं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित खातों के सामान्य प्रारूप में इस रिपोर्ट के तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खातों और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों को तैयार किया गया है।

जहाँ तक लेखा पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, हमारे विचार से बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के नियम 30 के अंतर्गत यथा वांछित, विश्वविद्यालय द्वारा लेखा बही और अन्य संबंधित अभिलेखों को समुचित तरीके से बनाया गया है।

इसके अलावा हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

स्थायी परिसम्पत्तियां (अनुसूची-4) रु. 128.59 करोड़

(अ-1) विश्वविद्यालय ने 2.41 करोड़ की लागत के उपस्कर-यूसिक पर प्रभारित, मूल्यहास 15 प्रतिशत की दर से रु. 36.18 लाख के स्थान पर मूल्यहास रु. 3.62 लाख प्रभारित किया गया।

इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों का अधिक आकलन तथा आय एवं व्यय खाते में घाटे का रु. 32.56 लाख रु. कम आकलन किया गया।

(अ-2) विश्वविद्यालय ने रु. 80.12 लाख की लागत के वाहन पर प्रभारित मूल्यहास 15 प्रतिशत की दर 12.02 लाख रु. के स्थान पर मूल्यहास केवल रु. 4.01/-लाख प्रभारित किया गया।

इसके परिणाम स्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों का अधिक आकलन तथा आय एवं व्यय खाते में घाटे का रु. 8.01 लाख रु कम आकलन किया गया।

(अ-3) विश्वविद्यालय ने रु. 5.90 करोड़ की लागत के उपस्कर पर प्रभारित मूल्यहास 15 प्रतिशत की दर 68.62 लाख रु के स्थान पर मूल्यहास रु. 88.47 लाख प्रभारित किया गया।

इसके परिणाम स्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों का अधिक आकलन तथा आय एवं व्यय खाते में घाटे का रु. 19.85 लाख रु. का कम आकलन किया गया।

(अ-4) विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान 1.23 करोड़ रुपये की लागत की पुस्तकें खरीदी जो पूंजीकृत नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों तथा पूंजी निधि में घाटे का 1.23 करोड़ रु. कम आकलन किया गया।

(अ-5) विश्वविद्यालय उपस्करों पर 15 प्रतिशत की दर से मूल्यहास प्रभारित कर रहा है। यद्यपि, विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय उपस्करों एवं विभागीय उपस्करों पर 10 प्रतिशत की दर से मूल्यहास प्रभारित किया है जिससे 4.65 लाख रु का कम मूल्यहास प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों का अधिक आकलन एवं आय एवं व्यय खाते में घाटे का 4.65 लाख रु का कम आकलन किया गया।

वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

नकद एवं बैंक शेष रु. 78.18 करोड़

(अ-6) विश्वविद्यालय में तीन महिला छात्रावास एवं तीन पुरुष छात्रावास हैं। सभी छात्रावासों में अलग खाता एवं संबंधित रोकड़ बही है। इन रोकड़ बही के अवशेषों को तुलन पत्र के नकद एवं बैंक शेष के अन्तर्गत नहीं दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की वर्तमान देनदारियों एवं बैंक अवशेष का 38.28 लाख रु. कम आकलन किया गया है।

(ब) आय एवं व्यय लेखा

आय

सहायता अनुदान/आर्थिक सहायता (अनुसूची-6) रू. 26.77 करोड़

(ब.1) विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान रू. 21.61 करोड़ का गैर योजनागत अनुदान प्राप्त हुआ जिसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रयुक्त रू. 5.04 करोड़ का अनुदान भी शामिल है। रू. 5.04 करोड़ को वर्तमान देनदारियों के अन्तर्गत 'अग्रिम अनुदान' के रूप में दर्शाने के बजाय रू. 21.61 करोड़ की सम्पूर्ण राशि को विश्वविद्यालय की वर्तमान वर्ष में प्राप्त आय के रूप में दर्शाया गया है।

इसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय की आय का अधिक आकलन एवं वर्तमान देनदारियों का रू. 5.04 करोड़ कम आकलन किया गया।

(ब.2) विश्वविद्यालय ने रू. 10.00 करोड़ का योजनागत अनुदान प्राप्त किया जिसमें से रू. 5.45 करोड़ रुपये को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अनुदान (गैर-आवर्ती) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रू. 5.45 करोड़ को तुलन पत्र में निर्दिष्ट/चिन्हित निधि में जोड़ने के स्थान पर इसे आय एवं व्यय लेखा में आय के रूप में दर्शाया गया है।

इसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय की आय का अधिक आकलन एवं निर्दिष्ट/चिन्हित निधि में रू. 5.45 करोड़ का कम आकलन किया गया।

(ब-3) बारहवीं योजना में वर्ष 2012-13 के दौरान विश्वविद्यालय ने सामान्य विकास अनुदान के तहत शिक्षा विभाग की स्थापना हेतु रू. 5.00 करोड़ रुपये प्राप्त किया। वर्ष 2013-14 में इसे सीधे विश्वविद्यालय की पूंजी निधि से घटाने के स्थान पर वर्तमान वर्ष में प्राप्त 10.00 करोड़ के योजनागत अनुदान से 5.00 करोड़ रू. काट लिये गये एवं शिक्षा विभाग को स्थानांतरित कर दिये गये।

इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को वर्तमान वर्ष में प्राप्त आय का रू. 5.00 करोड़ कम आकलन किया गया।

शैक्षिक व्यय (अनुसूची-11) रू. 5.00 करोड़

(ब-4) यद्यपि विश्वविद्यालय ने रू. 1.26 करोड़ की पत्रिकाओं एवं प्रकाशनों की खरीद की है। इन सामग्रियों को पूंजीकृत नहीं किया गया। इसके स्थान पर इन सामग्रियों को शैक्षिक व्यय के तहत दर्शाया गया।

इसके परिणामस्वरूप शैक्षिक व्यय में रू. 1.26 करोड़ का अधिक आकलन एवं स्थाई परिसम्पत्तियों तथा मूल्याहारास में क्रमशः रू. 50.29 लाख तथा रू. 75.43 लाख कम का आकलन किया गया।

प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-

(ब-5) प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा में रू. 40.44 करोड़ का अनुदान प्राप्त दर्शाया गया है जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान विश्वविद्यालय ने केवल रू. 35.40 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया। दूसरी तरफ, वर्ष 2012-13 के दौरान विश्वविद्यालय ने शिक्षा विद्यापीठ की स्थापना हेतु 5.00 करोड़ प्राप्त किये एवं वर्ष 2013-14 में यहाँ

निधि का गलत तरीके से उपयोग करते हुए इसे शिक्षा विद्यापीठ के खाते में स्थानांतरित किया गया।

इसके परिणामस्वरूप प्राप्त अनुदान तथा अनुदान केन्द्र उपयोग में रु 5.00 करोड़ अधिक का आकलन किया गया।

(स) सामान्य

(स-1) लेखा तैयार करने के लिए भारत सरकार एवं लेखा मानक-1 द्वारा निर्धारित खातों के सामान्य प्रारूप का उल्लंघन करते हुए विश्वविद्यालय ने वार्षिक लेखा में अपनी लेखाकरण नीतियाँ प्रकट नहीं की हैं।

(स-2) विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय का आय व व्यय खाता एवं प्राप्तियां व भुगतान खाता, भविष्य निधि, नई पेंशन योजना, स्थापना 2013, शिक्षा तथा नवीन पाठ्यक्रम का अलग-अलग तुलन पत्र तैयार किया है। यद्यपि, समेकित तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्तियां और भुगतान खाता तैयार नहीं किये गये हैं।

(स-3) लेखांकन मानक-15 के उपबंधों का उल्लंघन करने हुए विश्वविद्यालय द्वारा बीमांकिक आधार पर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभों हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(द) प्रबंधन को पत्र: वे कमियां जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन शामिल नहीं की गई हैं, को उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रबंधतंत्र को अलग से जारी किये गये प्रबंधपत्र के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है।

(ई) सहायता अनुदान-विश्वविद्यालय का वित्तपोषण मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सहायता-अनुदान से होता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान विश्वविद्यालय को रु. 4040.07 लाख (ग्यारहवीं योजना का रु. 15.05 लाख + बारहवीं योजना रु. 1000.50 लाख + गैर योजना रु. 2161.22 लाख + अन्य (ईएमएफ) रु. 863.30 लाख) एवं आन्तरिक स्रोतों से निर्मित रु. 1020.61 लाख की निधि प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय के पास सहायता अनुदान का प्रारम्भिक शेष रु. 7817.90 लाख है। (ग्यारहवीं योजना का रु. 4030.18 लाख + बारहवीं योजना का रु. 2174.68 लाख + गैर योजना रु. 421.55 लाख+ अन्य (ईएमएफ) रु. 1191.49 लाख शामिल है)

कुल उपलब्ध निधि रु. 12878.58 लाख में से विश्वविद्यालय द्वारा 9069.79 लाख का व्यय किया गया (इसमें ग्यारहवीं योजना 3041.21 लाख+ बारहवीं योजना 2934.67 लाख + गैर योजना रु. 1838.97 लाख + अन्य (ईएमएफ) रु. 1254.94 लाख शामिल है) और अंतिम शेष रु. 3808.79 लाख बचा रहा (इसमें ग्यारहवीं योजना रु. 1249.89 लाख + बारहवीं योजना रु. 357.48 लाख + गैर योजना रु. 905.19 लाख + अन्य (ईएमएफ) रु. 1296.23 लाख शामिल है)

(अ) पूर्व के पैराग्राफों में हमारे आकलन के आधार पर हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा-पुस्तकों के अनुरूप है।

- (अप) हमारी राय में सर्वोत्तम सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों एवं नोट्स ऑन एकाउन्ट्स के साथ पठित तथा उपर्युक्त दिए गए संगत मामलों व इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट में वर्णित अन्य मामलों के आधार पर, उक्त वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है:
- (क) जहाँ तक विश्वविद्यालय के दिनांक 31 मार्च, 2014 के मामलों की स्थिति, इसके तुलन-पत्र का संबंध है, और
- (ख) जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कम आय एवं व्यय लेखा का संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वास्ते और उनकी ओर से

स्थान: लखनऊ

प्रधान लेखा परीक्षक निदेशक (मध्य)

दिनांक:

अस्वीकरण- “ प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

संलग्नक

(1) आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता,

विश्वविद्यालय ने अपनी आंतरिक लेखा स्थापति नहीं किया है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता।

विश्वविद्यालय की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित विसंगतियों को परिलक्षित करती है-

विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक वित्त अधिकारी नहीं है।

वर्ष 2011-12 से रु. 20.97 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम का समायोजन न होना।

वर्ष 2011-12 से रु. 37.98 लाख की एल.टी.सी. अग्रिम का समायोजन न होना।

वर्ष 2009-10 से पूर्व के अवधि से संबंधित विभिन्न बचत बैंक खातों से संबंधित रु. 83.76 करोड़ एवं रु. 72.73 करोड़ का गैर निर्णीत होना।

(3) अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था-

विश्वविद्यालय ने निर्दिष्ट किया है कि वर्ष 2013-14 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। यद्यपि, लेखा परीक्षण के लिए भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गई।

(4) वस्तु सूची (इन्वेन्टरी) के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था-

विश्वविद्यालय ने निर्दिष्ट किया है कि वर्ष 2013-14 के दौरान इन्वेन्टरी का भौतिक सत्यापन किया गया। यद्यपि, लेखा परीक्षण के लिए भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गई।

(5) सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता-

सांविधिक देय राशि उपयुक्त प्राधिकारियों को नियमित रूप से जमा किए जा रहे हैं।

उप निदेशक लेखा परीक्षा (मध्य)

उप निदेशक लेखा परीक्षा (मध्य)

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY



LUCKNOW

प्रज्ञा शील करुणा

ESTABLISHED 1996

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

LUCKNOW